

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

# द्वितीय पंचवर्षीय योजना

## प्रश्न और उत्तर



पब्लिकेशन्स डि विजन  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
भारत सरकार

35Noff&B—1

## विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
१ सामान्य परिचय	
२ वित्त	३
३. कृषि	११
४. भूमि नीति	१८
५. मिर्चार्ई और विजली	२२
६ सामुदायिक विकास	२८
७ उद्योग	३५
८ कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग	३६
९. परिवहन और मचार	४८
१०. निशा	५२
११. स्वास्थ्य	६२
१२. धावाम	६८
१३. थम	७४
१४. पिदडे बगी वा कल्याण	७८
१५. समाज न्याय और पुनर्वांग	८०
	८२

## सामान्य परिचय

प्रश्न—मोटे तौर पर पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अन्तर है ?

उत्तर—पहली पंचवर्षीय योजना में देश की भारी मजूद्री की भाँव रगी गई थी। तब हमारे माधन सीमित थे, इसलिए लक्ष्य बहुत ऊँचे नहीं रूने गए थे। उन समय गाँवों में कृषि और अन्य विधान कार्यक्रम, रेलवे प्रगात्री का पुनर्स्थापन, नगराचारियों को बमाने की समस्याएँ आदि ही प्रधान थीं। अतः उन्हीं की ओर विशेष ध्यान दिया गया था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए आरम्भ किए गए प्रयत्ना की ही दूसरी कड़ी है। पहली योजना की अपेक्षा दूसरी योजना पर दुगुने से भी ज्यादा खर्च किया जाएगा, इसलिए विवास भी पहले की अपेक्षा वही अधिक तेजी से होगा। इसके अतिरिक्त, दूसरी योजना में कृषि के स्थान पर उद्योगों, गाना और परिवहन पर अधिक जोर दिया गया है। पहली योजना में इन कामों पर कुल धन का तिहाई भाग खर्च किया गया था परन्तु अब लगभग आधी धनराशि इन्हीं के लिए निर्धारित कर दी गई है। पहली योजना में राष्ट्रीय आय में १० प्रतिशत तक की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु दूसरी योजना में यह लक्ष्य २५ प्रतिशत रखा गया है।

प्रश्न—कहा जाता है कि दूसरी योजना का लक्ष्य समाजवादी समाज का निर्माण करना है। कल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाज में क्या अन्तर है ?

उत्तर—जीविका के समान अवसर, सामाजिक न्याय, काम करने और निर्वाह योग्य मजदूरी पाने का अधिकार आदि बातों के आधार पर देश में अधिक और सामाजिक व्यवस्था कायम करना ही हमारे मविधान का उद्देश्य है। ये सभी आदर्श कल्याणकारी राज्य की धारणा के अंग हैं। समाजवादी समाज वास्तव में इसी बात का कहने का दूसरा और अधिक सही तरीका है। इसका अर्थ यही है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर पूरे समाज का लाभ हो। दूसरे शब्दों में, जहाँ योजना का लक्ष्य देश के उत्पादन में वृद्धि करना है वहाँ उसका प्रयास यह भी है कि जाधन बढ़े वह अमीरों की जेबों में ही न जाकर समाज के निर्धन और हतभाग लोगों के जीवन का ऊँचा उठाने में लग सके।

प्रश्न—दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या हैं ?

उत्तर—संक्षेप में दूसरी योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- (क) तीव्र गति में औद्योगीकरण करना जिससे राष्ट्र की सम्पत्ति में वृद्धि हो सके,
- (ख) राष्ट्र की आय में वृद्धि करना जिससे जन-साधारण का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके
- (ग) रोजगार के अवसरों में व्यापक विस्तार करना, और
- (घ) आय और सम्पत्ति के असमान बंटवारे का बन्धन करना।

स्पष्ट है कि दूसरे और तीसरे उद्देश्य पहले उद्देश्य के ही परिणाम हैं। यदि देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा तो स्वतः ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। आय और सम्पत्ति

के असमान बटवारे को। कम-कर-द देने से बढ़े हुए उत्पादन से जो लाभ होगा, उसका उपयोग जन-साधारण का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में किया जाएगा।

प्रश्न—आय और सम्पत्ति की विषमता को दूर करने के लिए कौन-से कदम उठाए जाएँ ?

उत्तर—सम्पत्ति को कुछ लोगों के हाथों में ही जाने से रोकने के लिए योजना में जा मुख्य प्रस्ताव रखे गए हैं, वे इस प्रकार हैं

- (क) उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक धार दिया गया है। हम उद्देश्य को पूरा करने के लिए १९५८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में कुछ सुधार कर दिए गए हैं।
- (ख) योजना में कृषि की पैदावार, हाट-व्यवस्था, ऋण-व्यवस्था और छोटे उद्योगों के उत्पादन के लिए सहनारिता का बचाव देने की गिफ्टारिष की गई है।
- (ग) नए कर, जैसे आय के बजाय खच के आधार पर कर, नग्नता पर वापिक कर आदि कुछ तरीके धन के विषम बटवारे का एक निश्चित अर्वाधि में कम करने के लिए काम में लाए जाएँगे।
- (घ) पहली योजना में तिजी क्षेत्र पर राज्य के अधिक नियन्त्रण के लिए जा कदम उठाए गए थे—जैसे जमींदारी उन्मूलन मेंनेजग एजेन्सी प्रणाली में सुधार, कम्पनी अधिनियम म मशीयन और इम्पीरियल बैंक आफ इडिया का राष्ट्रीयकरण करना आदि—उनकी प्रगसा हुई है और आना है कि दूसरी योजना में इम दिशा में और भी अधिक काम होगा।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त उद्देश्य में जनवरी १९५६ में जीवन बीम का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

**प्रश्न—**भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है ?

**उत्तर—**योजना के आरम्भ में अनुमान लगाया गया था कि भारत में लगभग ५० लाख लोग बेरोजगार हैं। और यह मानते हुए कि काम करने वालों की संख्या में प्रति वर्ष २० लाख की वृद्धि हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि १९६०-६१ तक करीब १ करोड़ ५० लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरे समय के रोजगार की जरूरत होगी। इनके प्रतिरिक्त शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों में कृषि कार्यों और घरेलू धर्मों में लोगों का थोड़ी-बहुत मात्रा में काम मिलता रहता है।

**प्रश्न—**शहरी और देहाती क्षेत्रों में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसको दूर करने के लिए योजना अर्थात् में क्या तरीके अपनाए जाएंगे ?

**उत्तर—**भिवाई कार्यक्रमों, विजलीघरों, मडकों बागवानी और जमीन को खेती योग्य बनाने की योजनाओं तथा अन्य कामों, विशेष रूप से राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत आने वाले कामों से देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी काफी सीमा तक कम हो जाएगी। इसके प्रतिरिक्त, योजना में गृह उद्योगों तथा छोटे उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए २०० करोड़ रुपये रखा गया है, क्योंकि इनमें बहुत-से लोगों को रोजगार मिलना है। पहली योजना में इसके लिए केवल ५० करोड़ रुपये रखा गया था। उत्पादन के तरीकों में सुधार करने और डीन प्रवर्ध करने से आशा है कि इन उद्योगों से पाच वर्षों के अन्दर होने वाली उपभोग्य वस्तुओं की प्रतिरिक्त मांग काफी सीमा तक पूरी हो जाएगी। अनुमान है कि मूल उद्योगों पर जो बड़े पैमाने में धन लगाया जाएगा और स्वास्थ्य, शिक्षा, शोध, समाज कल्याण आदि पर अधिक व्यय किया जाएगा, उसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शहरी में रोजगार के और मार्ग खुल जाएंगे। अनुमान है कि इन नए कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुल भिवाई ६० लाख से १ करोड़ तक लोगों को रोजगार मिल जाएगा।

प्रश्न—शिक्षित वर्गों में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर—चूँकि प्रथम योजनाकाल में देहाती क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर अधिक जोर दिया गया था, इसलिए शिक्षित वर्गों के लोगों के लिए रोजगार का बहुत अधिक प्रबन्ध नहीं किया जा सका था। ऐसा तभी हो सकता है यदि उद्योगों का विस्तार अधिक तेजी से होने लगे। अनुमान है कि दूसरी योजना की अवधि में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रम में और प्रवक्ता-प्राप्त व्यक्तियों के रिक्त स्थानों से लगभग १५ लाख लोगों को काम मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त, छोटे उद्योगों में और महवारी माल परिवहन में भी इन लोगों को रोजगार दिलाने का विचार है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने से और नवयुवकों में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा जाग्रत करने में भी कुछ सीमा तक लोगों को रोजगार मिल सकता है।

प्रश्न—योजना आयोग ने योजना को लचीली योजना कहा है। इसका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—योजना बनते समय योजना आयोग ने देश की आवश्यकताओं और माधनों को बड़ी व्यापक दृष्टि में देखा था। अनुमान है कि हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों में जो प्रगति होगी उसे देखते हुए प्राथमिकताओं में फेर-बदल किए जाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध माधनों और विद्युतों का विशिष्ट योजना बनने के बाद उत्पन्न होने वाली नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी योजना में परिवर्तन किए जा सकते हैं। यही कारण है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को लचीली योजना कहा गया है।



प्रश्न—योजना को 'जनता की योजना' क्यों कहा जाता है ?

उत्तर—इसके तीन मुख्य कारण हैं एक तो योजना का लक्ष्य समाजवादी समाज बनाने का है और उससे जन-साधारण को ही लाभ पहुंचेगा । दूसरे, योजना को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व उस पर देश में खूब विचार-विनिमय हुआ था और योजना के बनाए जाने में देश की जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हिस्सा लिया था । तीसरे, योजना को सफल बनाने के लिए जनता की सहायता की बहुत बड़ी आवश्यकता है । जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए बहुत-से कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिनमें से सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्थानीय निर्माण कार्यक्रम और अल्प बचत आन्दोलन मुख्य हैं ।

प्रश्न—स्थानीय निर्माण कार्यक्रम किसे कहते हैं ?

उत्तर—योजना के अन्तर्गत अधिकतर बड़ी विकास योजनाएँ ही आती हैं जिनमें आम आदमी को सीधे कोई दिलचस्पी नहीं होती । योजना और देश की जनता को एक-दूसरे के करीब लाने और गावों के निवासियों की दक्षिण का पूर्ण उपयोग करने के लिए पहली योजना में स्थानीय निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे निर्माण कार्य किए गए जिनमें से हरेक की लागत अधिक से अधिक २०,००० रुपये आती थी और जिनसे लोगों को स्थायी लाभ पहुंचता था । इनके लक्ष्य का आधा भाग जनता ने स्वयं नकद धन या सामान आदि देकर अथवा अपने परिश्रम द्वारा उठाया । गाव की मडके, स्कूलों और दवाखानों की इमारतों की मरम्मत तथा खेती की उन्नति के लिए कुछ बाध, कुएँ आदि बनाने के काम इन कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण हैं ।

जिन क्षेत्रों में अभी तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ नहीं किए जा सके हैं, वहाँ इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है । एक तरह से इसमें

राष्ट्रीय विस्तार सेवा को पृष्ठभूमि तैयार होती है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा बड़ी तेजी से प्रगति कर रही है, और आशा है कि योजना के अन्तर्गत देश के सभी भागों में पहुँच जाएगी।

**प्रश्न—**योजना के अनुसार देहाती क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में पंचायतों का क्या स्थान है ?

**उत्तर—**योजना आयोग ने सिफारिश की है कि जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के विकास कार्यक्रमों को जिना, ताल्लुका और गाव के कामों में बाँट दिया जाए। गावों में ये पंचायतों के कल्याण कार्य, भूमि सुधार, भूमि प्रबन्ध, स्थानीय विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए बुनियादी संस्थाओं का काम देंगी। इन्हें क्रियाशील बनाने के उद्देश्य में आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त प्रत्येक सम्भव उपाय किया जा रहा है।

**प्रश्न—**योजना की सफलता के लिए जनता के सहयोग के अतिरिक्त, अन्य किन बातों की आवश्यकता है ?

**उत्तर—**मुख्य आवश्यकताएँ ये हैं

- (१) विश्व युद्ध न हो तथा देश में दृढ़ता न फैले।
- (२) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ सहयोग हो।
- (३) मुचालू रूप में काम करने वाली ऐसी प्रशासन व्यवस्था बनाई जाए जिसके द्वारा योजना के आर्थिक कार्यक्रम तथा सामाजिक उद्देश्य पूरे किए जा सकें।

**प्रश्न—**प्रशासन सम्बन्धी मुख्य कार्य कौन-से हैं जिन्हें पूरा करना है ?

**उत्तर—**मुख्य कार्य ये हैं —

- (१) अष्टाचार को उखाड़ फेंकना है।

- (२) प्रशासनिक और टेकनीकल तबयं बनाए जाने हैं ।
- (३) प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए जाने हैं ।
- (४) कामो को जल्दी और मितव्ययिता के माय पूरा करना है ।
- (५) सार्वजनिक उद्योगो की ठीक ढग से व्यवस्था करनी है ।
- (६) कृषि, सामुदायिक विकास, कुटीर और छोटे उद्योगा क लिए टेकनीकल, आर्थिक तथा अन्य सहायता दी जानी है ।
- (७) विकास कार्यों पर होने वाले खर्च का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करना है ।
- (८) सहकारी क्षेत्र को पुष्ट करना है ।

प्रश्न—क्या इस योजना के बाद भी पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी ?

उत्तर—विकास का क्रम एक अटूट क्रम है । इसरी योजना उन्नति के पय पर हमारा दूसरा चरण है । भविष्य में और भी योजनाए बनाई जाएगी ।

## अध्याय २

### वित्त

प्रश्न—योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ४,००० करोड़ खर्चा रखा गया है। यह धनराशि बहुत बड़ी है। इसे जुटाने का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाएगा ?

उत्तर—इस धन का प्रबन्ध निम्न तरीके से होगा

(करोड़ रुपये में)

#### १. दसो साधन

(क)	चालू राजस्व में से बची हुई राशि	२००
	(अ) कर की वर्तमान दरों के अनुसार	३५०
	(ब) अतिरिक्त करों द्वारा	४५०
(घ)	जनता से ऋण	१,२००
	(अ) बाजार ऋण	७००
	(ब) छोटी बचने	५००
(ग)	बजट के दूसरे साधन	६००
	(अ) विकास कार्यक्रमों के लिए रेलवे का अग्रग	१५०
	(ब) भविष्य निर्दिष्ट (प्रावीडेंट फंड) और दूसरी जमा राशियाँ	२५०
२	बोम्बों योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से और अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्य जैसी सहायता	५००

३. घाटे की अर्थ-व्यवस्था	१,२००
४. कमी को पूरा करने के लिए माधनों को उपलब्ध करने के लिए अतिरिक्त उपाय	४००
जोड़	<u>४,८००</u>

यह योजना की एक मॉडेल रूपरेखा है। वैसे आर्थिक स्थिति के अनुसार उमने समय-समय पर परिवर्तन होते रहेंगे।

प्रश्न—उपर्युक्त ४,८०० करोड़ रुपया विकास के मुख्य कार्यों पर किस प्रकार व्यय किया जाएगा और पहली योजना से इसमें क्या अन्तर होगा ?

उत्तर—इस धनराशि का वितरण निम्न प्रकार से होगा। इसके साथ ही पहली योजना का व्यय भी दिया जा रहा है

	(करोड़ रुपये में)	
	इसरी योजना	पहली योजना
कृषि और सामुदायिक विकास	५६८	३८७
मिथाई और विद्युत	६१३	६६१
उद्योग और खाने	८६०	१७६
परिवहन और संचार	१,२८५	५५०
महाज सेवाएँ	६४५	५३३
अन्य	६६	६६
जोड़	<u>६,८००</u>	<u>२,३५६</u>

प्रश्न—निजी क्षेत्र में कितना व्यय किया जाएगा ?

उत्तर—निजी क्षेत्र में व्यय का अनुमान २,४०० करोड़ रुपए के आस-पास है। विभिन्न कार्यों पर इसका स्थूल विभाजन इस प्रकार होगा :

	(करोड़ रुपयों में)
१ सगठित उद्योग और खाने	५७५
२ बागान, बिजली मस्थान, और रेलों के अतिरिक्त अन्य परिवहन	१२५
३ खेती और ग्रामोद्योग तथा छोटे उद्योग	३००
४ निर्माण कार्य	१ ०००
५ स्टाक	४००
जोड़	२,४००

प्रश्न—घाटे की अर्थ-व्यवस्था किसे कहते हैं ?

उत्तर—सरकार को करो, राश्वीय उद्योगों की आय जनता से ऋणा, जमा धनराशिओं और निधियों आदि से जो आय होती है उसके अतिरिक्त यदि वह रुपया खर्च करता है, तो उसे घाटे की अर्थ-व्यवस्था कहते हैं। सरकार इस घाटे को जमा की हुई तकदी में से रुपया निकालकर या रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेकर पूरा कर सकती है, परन्तु दोनों स्थितियों में मुद्रा गभरण में वृद्धि हा जाती है। इसकी सीमाओं को समझने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि मुद्रा परिचलन में समाज को अनेक प्रकार की सेवाएँ और वस्तुएँ उपलब्ध होनी हैं। यदि परिचलन में मुद्रा की वृद्धि हा जाए और इसके माय-माथ वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि न हो तथा मुद्रा के

नियन्त्रण के उपाय न किए जाए तो उसका अनिवार्य परिणाम मुद्रास्फीति के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी स्थिति में घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि उचित सीमा के अन्दर तो यह विवास साधनों को प्रोत्साहित करने का बहुत अच्छा तरीका है। प्रायः सभी उन्नत देशों ने इससे लाभ उठाया है।

प्रश्न—योजना में लगभग १,२०० करोड़ रुपए के घाटे की अर्थ-व्यवस्था का अनुमान लगाया गया है। यह धनराशि बहुत बड़ी है, इसलिए मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करने के लिए किन उपायों का अवलम्बन किया जाएगा ?

उत्तर—१,२०० करोड़ रुपयों में से २०० करोड़ रुपयों की पूर्ति पाँड पावने में से निकालकर की जा सकती है। इसी बीच राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठने के कारण नकद रुपए की माग अधिक होने लगेगी। इससे कुछ सीमा तक मुद्रा के अधिक चलन से कोई हानि नहीं होगी।

शेष धन के लिए भावधानी बरतना आवश्यक है। योजना में कठोर वित्तीय तथा मौद्रिक नीति के बरतने की सिफारिश की गई है ताकि प्रत्यय (नेडिट) का अत्यधिक विस्तार न होने पाए, क्योंकि वैसा होने से या तो उसका बाजार की कीमतों पर दुरा असर पड़ सकता है या उसका उपयोग विकास के स्थान पर सड्रेवाजी के लिए हो सकता है। इसका एक उपाय यह भी है कि खाद्य पदार्थों, कपड़े तथा आम जट्टरन की दूमरी वस्तुओं का पर्याप्त भण्डार रखा जाए, अन्यथा इनकी कीमतें बढ़ जाने से समाज के निचले वर्ग के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। वस्तुओं पर कंट्रोल और राजस्व कर देना भी मुद्रास्फीति को रोकने का एक अच्छा उपाय है, यद्यपि पिछले अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि यह उपाय बहुत अधिक समय तक प्रभावकारी ढंग में नहीं चल सकता। एक उपाय यह भी है कि दर शीघ्र

परन्तु सोप-ममत्कर बढ़ा दिए जाए जिससे अधिक गफानोरी को रोका जा सके और घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य हानि-कारक प्रवृत्तियों का नियन्त्रित किया जा सके ।

प्रश्न—योजना के साधनों को बढ़ाने में ग्राम जनता किस प्रकार सहयोग दे सकती है ?

उत्तर—ग्राम व्यक्ति अपनी बचत के धन को ऋण के रूप में देकर सरकार की सहायता कर सकता है । भारत में जहाँ बैंक में रुपया जमा करने की आदत बहुत कम लोगों को है, जनता की अल्प बचतों का विशेष महत्व है । दूसरी योजना में अल्प बचतों द्वारा धन प्राप्त करने का लक्ष्य ५०० करोड़ रुपया है, जबकि पहली योजना में इनसे २३७ करोड़ रुपया एकत्र किया गया था । अल्प बचत आन्दोलन केवल धन एकत्र करने का ही साधन नहीं है, बल्कि जनता में बचत की प्रवृत्ति बढ़ाने और उसको योजना से अधिक परिचित कराने का तरीका भी है । इस सम्बन्ध में यह भी याद रखने की बात है कि जनता से जितना अधिक धन मिलेगा, वह चाहे वर के रूप में हो या उधार के रूप में घाटे की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता उगी अनुपात में कम होगी ।

प्रश्न—योजना के विशाल औद्योगिक कार्यक्रम के कारण देश के विदेशी मुद्रा साधनों पर बहुत भार पड़ेगा । भुगतान सतुलन में होने वाली कमी की पूर्ति किस प्रकार होगी ?

उत्तर—अनुमान है कि दूसरी योजना में बड़े पैमाने पर बाहर से आने वाली मशीनें और विभिन्न उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल के कारण भुगतान सतुलन में १,१०० करोड़ रुपए की कमी पड़ेगी । इस कमी का कुछ भरा पाँड़ पावने में से २०० करोड़ रुपए निकालकर पूरा हो जाएगा ।



निजी क्षेत्र में लगभग १०० करोड़ रुपए मिलने की आशा है। इस तरह ८०० करोड़ रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त करने की समस्या रह जाती है। इस सिलसिले में यह स्मरणीय है कि अमरीका के टेकनीकल सहयोग मिशन; रुम, नावें, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए मिली हुई राशि में से ३१० करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं।

योजना में अधिक से अधिक निर्यात करने और कम से कम आयात करने पर जोर दिया गया है। योजना के लिए काफी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा मित्र देशों से प्रत्येक सम्भव उपाय काम में लाया जाएगा।

**प्रश्न—**क्या विदेशी सहायता स्वीकार करना हमें पराधीन बना देगा ?

**उत्तर—**नहीं, यदि विदेशी सहायता के माध्यम से कुछ राजनीतिक शर्तें न जुड़ी हों, तो इसकी कोई सम्भावना नहीं है। प्रायः सभी देशों ने कभी न कभी विदेशी सहायता का सहारा लिया है और इसमें कोई दोष भी नहीं है। भारत ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शर्तों के माध्यम से कोई भी विदेशी सहायता स्वीकार नहीं करेगा।

**प्रश्न—**यदि विदेशी सहायता आशा के अनुरूप न मिल पाई, तो यह कमी कैसे पूरी होगी ?

**उत्तर—**यदि आवश्यकता के अनुरूप विदेशी साधन उपलब्ध न हो सकें, तो देश को विदेशों में आयात कम करके विदेशी मुद्रा को अधिक से अधिक सुरक्षित रखना पड़ेगा। इस उपाय का सहारा हम एक सीमित मात्रा में ही ले सकते हैं। वार्षिक विनियोग कार्यक्रमों का आकार

निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख बात यह देखी जाएगी कि कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है ।

प्रश्न—इस योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ?

उत्तर—दूसरी योजना शुरू होने के समय राष्ट्रीय आय लगभग १०,८०० करोड़ रुपए थी अथवा पहली योजना के शुरू होने के समय से १८ प्रतिशत अधिक थी। आगा है १९६०-६१ तक राष्ट्रीय आय २५ प्रतिशत बढ़कर लगभग १३,४८० करोड़ रुपए हो जाएगी। परन्तु खपत के स्तर में वास्तविक वृद्धि केवल २० प्रतिशत के लगभग होगी, क्योंकि इसके साथ ही योजना में विनियोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वचत की दर को बढ़ाना पड़ेगा ।

## अध्याय ३

### कृषि

प्रश्न—पहली योजना में कृषि की उन्नति पर बहुत जोर दिया गया था। क्या दूसरी योजना में भी कृषि पर उतना ही जोर दिया गया है ?

उत्तर—यद्यपि दूसरी योजना में अधिक जोर उद्योग, खानों और परिवहन पर दिया गया है, तथापि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ तक खाद्यान्न का प्रश्न है, उनके अधिकाधिक उत्पादन की आवश्यकता है, क्योंकि अन्न का भण्डार कम है और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरे विकास कार्यों पर होने वाले बड़े खर्चों और मौसम की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को प्रवृत्तियों को रोकने के लिए भी खाद्यान्न का भण्डार रहना बहुत आवश्यक है।

साथ ही कृषि की विभिन्न शाखाओं में भी विकास होना चाहिए, क्योंकि देश की औद्योगिक योजनाओं को पूरा करने के लिए व्यापारिक फसलों का बड़ा महत्व है।

दूसरी योजना में कृषि सामुदायिक विकास और सिंचाई के लिए २४६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि कुल बजट की २० प्रतिशत है।

प्रश्न—कृषि की पैदावार के मुख्य लक्ष्य क्या हैं ?

उत्तर—योजना में मुख्य पैदावारों के लिए जो लक्ष्य रये गए थे, उन्हें हाल ही में बढ़ा दिया गया है। अब ये इस प्रकार हैं

वस्तु	(लाख में)		प्रतिशत वृद्धि
	१९५५-५६ में उत्पादन	१९६०-६१ के लक्ष्य*	
(१)	(२)	(३)	(४)
खाद्यान्न	६५० टन	८१० (७५०)	२४ ७
तिलहन	५५ टन	७६ (७०)	२७ ०
गन्ना (गुड)	५३ टन	७८ (७१)	०३ ६
कपास	४२ गांठ	६५ (५५)	५५ ६
पटसन	४० गांठ	५५ (५०)	५८ १

\*योजना के मूल लक्ष्य काष्ठक में दिए गए हैं।

धारा है कि योजना काल के अन्त तक कृषि पैदावार में २८ प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।

प्रश्न—कृषि पैदावार में वृद्धि किस प्रकार होगी ?

उत्तर—पहली योजना की तरह ही इस योजना में भी कृषि पैदावार में वृद्धि मिर्चाई की अधिक सहायिता देकर, नई भूमि को खेती योग्य बनाकर और ज़ूमका अधिक सदुपयोग करने तथा खाद, अच्छे बीजों तथा खेती के नए तथा उन्नत तरीके अपनाकर की जाएगी। राष्ट्रीय विस्तार सेवा

और सहकारिता आन्दोलन से भी कृषि के विकास में सहायता मिलेगी। इसमें स्थानीय साधनों का उपयोग होगा और अधिक पूँजी की उपलब्धि भी होगी।

**प्रश्न—**कृषि के विकास में सहकारिता आन्दोलन का क्या स्थान है ?

**उत्तर—**सहयोग का सिद्धांत तेजी से सामाजिक और आर्थिक विकास करने, विशेष रूप में गावों का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि के लिए धन की व्यवस्था करने, खाद्यान्नों का भण्डार रखने, छाटाई-सफाई आदि करने, हाट-ब्यवस्था करने और बीज व खाद का प्रबन्ध करने तथा कृषकों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि में सहकारी संस्थानों का बहुत बड़ा महत्व है।

**प्रश्न—**सहकारिता के क्षेत्र में इधर देहातो में सतोपजनक प्रगति नहीं हुई है। इस आन्दोलन को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

**उत्तर—**आर्थिक और दूसरे साधनों का अभाव के कारण सहकारी समितियाँ सुचारु रूप में कार्य नहीं कर सकती। ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक के जरिये विभिन्न स्तरों पर सहकारी संस्थाओं में राज्य की साझेदारी द्वारा सहकारी आन्दोलन को पुनर्गठित करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालिक) निधि राज्य सरकारों को लम्बी मियाद का कर्ज देने के लिए स्थापित की है जिससे कि वे राज्य कृषि ऋण समितियों में साझेदार बन सकें। केन्द्रीय सरकार भी एक राष्ट्रीय सहकारिता विकास निधि खोलने वाली है। ऋण न देने वाली सहकारी संस्थाओं की हिस्सा-पूँजी इसी निधि से दी जाएगी। गौदाम बनाने के लिए सहायता, सहकारी समितियों के कर्मचारियों का वेतन, और राज्यों के सहकारी विभागों के प्रशासन तथा उन्हें समर्थ बनाने के लिए धन इन्हीं क्रांति से दिया जाएगा।

पुनर्गठन की इस नई योजना की एक विशेषता यह भी है कि एक ही इलाके की ऋण देने वाली और ऋण न देने वाली मस्थाओं को परस्पर सम्बद्ध करने की व्यवस्था की गई है जिससे किमान बीज, खाद, औजार, और दूसरी आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं के लिए ऋण ले सकें और साथ ही उनकी फसल की बिक्री का भी प्रबन्ध हो सके। हाट-ब्यवस्था ममितिया और बड़ी ऋणदात्री ममितिया पैदावार के मध्य के लिए गोदाम बनाएगी। केन्द्रीय भाण्डागार (वेधर हाउसिंग) निगम और राज्या के निगम भी भाण्डागार स्थापित करेंगे।

सहकारिता कार्य के लिए सभी प्रकार के कर्मचारियों के प्रतिभण वा कार्यक्रम भी रखा गया है। दूसरी योजना में सहकारिता आन्दोलन के लिए ४० करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न—'केन्द्र ग्राम योजना क्या है ?

उत्तर—'केन्द्र ग्राम' नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह देश के पशुधन सुधार की कुजी हागी। केन्द्र ग्राम की एक दुकान में ६ गाँव हान हैं जिनमें ३ वर्ष से अधिक उम्र वाली कुल मिलाकर लगभग ५००० गाए रहती हैं। इस योजना के अनुसार कुछ चुने हुए इलाका में जमकर कार्य किया जाता है। इनमें घटिया किस्म के माडा को बधिया कर दिया जाता है, नस्ल का वृद्धि गर्भाधान केन्द्र स्थापित करके नियन्त्रित किया जाता है, बड़े पालने के लिए सहायता दी जाती है, चारे के मापना का विस्तार किया जाता है और पशुपालन उद्योग की वस्तुओं की सहकारी ढंग पर बिक्री की जाती है। पहली योजना की अवधि में ५७४ केन्द्र ग्राम और १४४ वृद्धि गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए गए थे। दूसरी योजना में १,२१८ केन्द्र ग्राम और २४५ वृद्धि गर्भाधान केन्द्र ग्वालन वा लक्ष्य है। आशा है कि इस योजना में लगभग २२,००० अच्छे माड, ६,५०,००० अच्छे बैल, और १० लाख अच्छी गाए मिल सकेंगी।

## भूमि नीति

प्रश्न—भारत में भूमि सुधार सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उत्तर—मुख्य बातें इस प्रकार हैं —

- (१) सरकार और वास्तुकार के बीच से द्विचौलियों की समाप्ति ।
- (२) पट्टेदारी सुधार जिससे जमीन का लगान कम हो जाए और वास्तुकार को जमीन पर स्थायी अधिकार मिल जाए । इसमें जमीन मालिक को अधिकार होगा कि वह खुदवास्तु के लिए जमीन का कुछ हिस्सा हासिल कर ले ।
- (३) खेती की जमीन का अधिकतम सीमा निर्धारण ।
- (४) जमीन की चक्कबन्दी और सहकारी खेती का विकास करके कृषि का पुनर्गठन ।

प्रश्न—इस भूमि नीति से योजना के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक होगी ?

उत्तर—इस भूमि नीति से योजना के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति भूमि की पट्टेदारी की सुरक्षा का विश्वास दिलाकर और दूमरे लगान घटाकर होगी । इसमें वास्तुकार को भूमि की अच्छा बनाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने

का प्रोत्साहन मिलेगा । सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में इस भूमि नीति का लक्ष्य यह है कि भूमि का व्यापक आधार पर पुनः बंटवारा किया जाए तथा ग्राम और सम्पत्ति की असमानता को कम किया जाए । सहकारी खेती पर जोर देने के कारण इसमें एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की रचना होगी तथा और अधिक सुचारु तथा उत्पादनशील कृषि अर्थ-व्यवस्था के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी

प्रश्न—योजना में पट्टेदारी सम्बन्धी किन सुधारों का उल्लेख किया गया है ?

उत्तर—सुधार इस प्रकार हैं —

- (१) काश्तकार (इनमें फसल में हिस्सा बटाने वाला भी शामिल है) जो लगान देता है वह कुल पैदावार के एक-चौथाई या पाचवें हिस्से में अधिक नहीं होना चाहिए । अधिकतम नकद लगान भी मालगुजारी के कुछ गुने तक निश्चित किया जाए ।
- (२) पट्टेदारों को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए । हाँ, यदि मालिक मजबूत खुदकाश्त के लिए जमीन हासिल करना चाहे तो उसे सीमित क्षेत्र में भूमि दे दी जाए । काश्तकार को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि मालिक के जमीन हासिल कर लेने के कारण वह भूमिहीन नहीं हो जाएगा ।
- (३) जिन क्षेत्रों में काश्तदारों को मौरसी अधिकार दे दिए गए हैं, वहाँ यदि वे मुआवजा दे दें तो उन्हें भूमि का स्वामित्व मिल जाना चाहिए ।

प्रश्न—देखा गया है कि यद्यपि जिन राज्यों ने कानूनन पट्टेदारी की सुरक्षा के नियम बना दिए हैं, वहाँ भी कभी-कभी जमींदार काश्तकारों



को बेदखल कर देते हैं। अपने सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के कारण वे काश्तकारों से उनकी अनिच्छा होती हुए भी 'स्वेच्छा से दिया' तिलवा लेते हैं। काश्तकारों को इस प्रकार बेदखल होने से बचाने के लिए योजना में क्या सुझाव दिया गया है ?

उत्तर—इस सम्बन्ध में दो सिफारिशों की गई हैं

- (१) जमीन की वापसी तब तक बंद नहीं ममकी जाएगी जब तक मालगुजारी अधिकारी छान-बीन करके इस बात का निश्चय न कर ले कि काश्तकार ने जमीन स्वेच्छा से छोड़ी है और उनका पंजीकरण कर ले।
- (२) जमींदार उस छोड़ी हुई जमीन के उनसे ही हिस्से पर कब्जा कर सकता है जितनी कानूनन खुदकाश्त के लिए ली जा सकती है। बची हुई जमीन पर सरकार का कब्जा होगा।

प्रश्न—योजना आयोग ने खेती की जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सिद्धान्त का समर्थन किया है। यह सीमा किस प्रकार निश्चित की जाएगी ?

उत्तर—योजना आयोग ने सिफारिश की है कि तीन पारिवारिक बच्चा को जमीन की अधिकतम सीमा मान लिया जाए। एक पारिवारिक बच्चा एक हल की खेती की इकाई को या औसत परिवार जितनी खेती का काम संभाल सके, उतनी जमीन की इकाई को कहने हैं जिसमें जब-तब अन्य लोगों की सहायता लेना शामिल है।

प्रश्न—अधिकतम सीमा से किन-किन छूटों की सिफारिश की गई है ?

उत्तर—यह छूट इन पर लागू होंगी—बाम, काफी और खडक ब बामानों, विशिष्ट प्रकार के फार्मी, चीनी कारखानों के गन्ना फार्मी और ऐसे

मुब्यवस्थित फार्मों में जिनमें इतनी बड़ी पूजा लगी हुई हो या ऐसी स्थायी इमारतें बनी हो जिनको अलग-अलग कर देने से पैदावार में कमी हो जाने की सम्भानना हो ।

प्रश्न—भूमिहीन मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए योजना में क्या सुझाव रखे गए हैं ?

उत्तर—जहां तक सम्भव होगा, अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कारण प्राप्त होने वाली बची हुई जमीन, भूदान आन्दोलन से प्राप्त जमीन, खेती योग्य बनाई गई जमीन तथा अन्य साधनों से प्राप्त जमीन भूमिहीन मजदूरों को दी जाएगी । परन्तु इस प्रकार वितरित की जाने वाली जमीन बहुत थोड़ी होगी, इसलिए यह समस्या का केवल आंशिक समाधान है । इसलिए विचार है कि इन लोगों के सहायताार्थ निर्माण कार्यों के लिए उनकी प्रथमिक सहकारी समितियां संगठित की जाएं और उनके लाभार्थ बहुत-से गृह उद्योग शुरू किए जाएं । आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि इन मजदूरों को मुफ्त जमीन दी जाए जिस पर वे अपने घर बना सकें । आयोग का यह भी विचार है कि इनको न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत ले लिया जाए ।

✓ प्रश्न—कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जमीन की चरबन्दी करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस दिशा में कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर—चरबन्दी के कार्यक्रम बहुत-सी राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं में सम्मिलित कर लिये हैं । योजना आयोग ने देश के विभिन्न भागों में चालू तरीकों और समाधानों का अध्ययन किया है जिससे इस अनुभव का सदुपयोग किया जा सके ।

विभिन्न राज्य अपने चकबन्दी कार्यक्रमों को व्यापक बना सकें, इसके लिए भारत सरकार ने राज्यों को चकबन्दी कार्यक्रमों पर उनके शुद्ध व्यय की ५० प्रतिशत और सकल व्यय की अधिक से अधिक २५ प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है।

**प्रश्न—सहकारी खेती के लिए किस कार्यक्रम की सिफारिश की गई है ?**

**उत्तर—**सुझाव यह है कि लगभग १० वर्षों में खेती की जमीन का चाकी बड़ा भाग सहकारी खेती के आधार पर जोता-बोया जाए।

**प्रश्न—सहकारी खेती के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन-से कदम उठाए जाएंगे ?**

**उत्तर—**सुझाव रखा गया है कि सहकारी खेती समितियों को सरकार से विशेष सहायता और सहायता मिलनी चाहिए, जैसे

- (१) सरकार अथवा सहकारी एजेंसियों की तरफ से ऋण दिया जाए और खेती के जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, उनको आर्थिक सहायता देते समय प्राथमिकता दी जाए।
- (२) अच्छे बीज, खाद और स्थानीय निर्माण के लिए सामान देने समय प्राथमिकता दी जाए।
- (३) जो जमीन सहकारी खेती में आती हो, उसकी चकबन्दी के लिए सहायता दी जाए।
- (४) सरकार द्वारा खेती योग्य बनाई हुई जमीनों और सबर्घनीय (खेती के लायक) पडती जमीनों को देते हुए प्राथमिकता दी जाए।

- (५) सहकारी खेती के प्रबन्धक को एक सीमित समय के लिए सरकारी महायता दी जाए ।
- (६) फार्म का प्रबन्ध करने, पैदावार को बाजार में बेचने और पैदावार के कार्यक्रम आदि बनाने में टेकनीकल महायता दी जाए ।
- (७) सहकारी कृषि सस्थाओं के सदस्यों को कुटीर उद्योग दूध-घी-मक्खन और बागवानी आदि कृषि से भिन्न कार्यों को विवक्षित करने में टेकनीकल और वित्तीय सहायता दी जाए ।

यह सुझाव रखा गया है कि खेती की जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद जो अतिरिक्त जमीन बचे, वह जहां संभव हो सहकारी कृषि समितियों को दे दी जाए । परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में दो एक और बाद में प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक योजना कार्य क्षेत्रों में सहकारी फार्म खोले जाए । इन सहकारी फार्मों को खोलने की सिफारिश इसलिए की गई है कि इनमें मगडन और प्रबन्ध के उचित तरीके निकाले जा सकें, और मजदूरों के लिए ये प्रशिक्षण केन्द्रों का काम भी दे सकें ।

**प्रश्न—भूमि सुधार में भूदान आन्दोलन का क्या महत्व है ?**

**उत्तर—**भूदान आन्दोलन भूमि सुधार कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है । भूदान में मिली हुई जमीन से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमीनें देकर बसाने का अवसर भी मिलेगा ।

## सिंचाई और बिजली

प्रश्न—सिंचाई का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—इस कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए है कि यदि कृषि की पैदावार के लक्ष्यो को पूरफ करना है तो किसानो को पर्याप्त मात्रा मे जल मिलना चाहिए । देश के अधिकांश भागो में फमल की जरूरत के लायक वर्षा नही होती । इतना ही नही, ज्यादातर वर्षा वर्ष में तीन महीने ही होती है । इसीलिए इसके अभाव की पूर्ति सिंचाई द्वारा करनी पडती है । सिंचाई के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य नदियो में प्रवाहित होने वाले समस्त जल का—जिमका कि ६० प्रतिशत आजबल बेकार बह जाता है—सदुपयोग करना और जल के अन्य स्थल साधनो का विकास करना है ।

प्रश्न—बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओ के लक्ष्य क्या हे ? जोती हुई कुल जमीन के लिए उनका क्या अनुपात हे ?

उत्तर—पहली योजना में सिंचाई के कार्यक्रम के अन्तर्गत एक दीर्घकालीन योजना इस दृष्टि से बनाई गई थी कि १५-२० वर्ष में

सिंचित भूमि पहले से दुगुनी, अर्थात् लगभग १० करोड़ एकड़ हो जाएगी। प्रथम याजना काल में १ करोड़ ४० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सींची गई जिनमें से ८० लाख एकड़ नई, बड़ी और मध्यम योजनाओं का परिणाम थी। आशा है, दूसरी योजना की अवधि में २ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि और सींची जाएगी, जिनमें से १ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई बड़ी योजनाओं से होगी। इस योजना के अन्त में आशा है कि खेती की कुल जमीन की २७ प्रतिशत जमीन में सिंचाई होने लगेगी, जबकि १९५५-५६ में यह जमीन २० प्रतिशत और १९५०-५१ में १७ ५ प्रतिशत थी।

प्रश्न—औद्योगिक प्रगति में बिजली का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी योजना में यह कितनी बढ जाएगी ?

उत्तर—पहली याजना के अन्त में देश में बिजली प्रतिष्ठानों की कुल क्षमता ३४ लाख किलोवाट थी। यह क्षमता पाच वर्ष पहले की अपेक्षा ४८ प्रतिशत अधिक थी। दूसरी योजना में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ३५ लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विचार है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की वर्तमान क्षमता में २० प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाए।

प्रश्न—सिंचाई और बिजली की किन मुख्य योजनाओं पर काम हो रहा है ?

उत्तर—इन योजनाओं की तालिका बहुत लम्बी है, पर यहाँ इनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं के नाम दिए जा रहे हैं—

भाकडा-नगल (पंजाब और राजस्थान)

शमोदर घाटी (पश्चिम बंगाल और बिहार)

होराकुड (उड़ीसा)  
 महानदी डेल्टा (उड़ीसा)  
 काकडापार (बम्बई)  
 मयूराक्षी (पश्चिम बंगाल)  
 कोसी (बिहार और नेपाल)  
 चम्बल (राजस्थान और मध्य प्रदेश)  
 तुंगभद्रा (मैसूर और आन्ध्र)  
 नागार्जुनसागर (आन्ध्र)  
 घाटपभा (मैसूर)  
 रिहन्द (उत्तर प्रदेश)  
 मधकुड (आन्ध्र और उड़ीसा)  
 पेरियार (मद्रास)  
 मलमपुझा (केरल)  
 कोयना (बम्बई)  
 भद्रा (मैसूर)

प्रश्न—इस समय जिन योजनाओं पर काम हो रहा है, उनके अति-रिक्त और कौन-सी नई योजनाएँ शुरू की जा रही हैं और उन पर कितना खर्च आएगा ?

उत्तर—दूसरी योजना के कार्यक्रम में लगभग २०० नई योजनाएँ हैं, जिनमें से केवल १८ पर ५ करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा। इस तरह पहले मध्यम योजनाओं पर अमल करना ही ठीक है, क्योंकि उनसे लाभ शीघ्र मिलेगा। इसी प्रकार बिजली पैदा करने वाली ४४ नई योजनाओं में से अधिकांश से योजनाकाल में ही थोड़ा-बहुत लाभ (लगभग ११ लाख किलोवाट) मिलने लगेगा।

नई योजनाओं में से कुछ मुख्य योजनाएँ ये हैं —

गिरना (बम्बई)

उकाई (बम्बई)

नर्मदा (बम्बई)

पूर्णा (बम्बई)

वाम (बम्बई)

म (बम्बई)

शारदा नगर (द्वितीय चरण) (उत्तर प्रदेश)

रामगंगा (उत्तर प्रदेश)

तवा (मध्य प्रदेश)

राजस्थान नहर योजना (राजस्थान)

वसावाटी (पश्चिम बंगाल)

दुर्गापुर ताप योजना (पश्चिम बंगाल और बिहार)

कोरबा पन-बिजली योजना (मध्य प्रदेश)

कुन्दाह पन-बिजली योजना (मद्रास)

शरावती पन-बिजली योजना (मैसूर)

बारौनी भाप केन्द्र (बिहार)

यमुना हाइडेल योजना (उत्तर प्रदेश)

नई सिंचाई योजनाओं पर कुल खर्च लगभग ४५० करोड़ रुपया होगा, जिसमें से आधा १९६०-६१ तक खर्च हो जाने की आशा है। सार्व-जनिक क्षेत्र में बिजली की नई योजनाओं में लगभग ४२० करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें से २९७ करोड़ रुपया योजनाकाल में ही खर्च हो जाएगा।

प्रश्न—सिंचाई में छोटी योजनाओं का कितना योग रहेगा ?

उत्तर—सिंचाई की छोटी योजनाओं के अन्तर्गत कुओं और तालाबों का निर्माण तथा मरम्मत करना, पम्प लगाना, बाघ और बन्दे बनाना और



उन्हे सुधारना आदि काम आते है । पिछले कुछ वर्षों में नलकूपों का भी बहुत महत्व बढ़ गया है । लगभग २० करोड़ रुपया लगाकर ३,६०० नए नलकूप खमाए जाएंगे । दूसरी योजना में जहा मध्यम और बड़ी योजनाओं द्वारा १ करोड़ २० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होगी, वहा इन छोटी योजनाओं से लगभग ६० लाख अतिरिक्त भूमि सींची जा सकेगी ।

**प्रश्न—**क्या सिंचाई की छोटी योजनाओं की अपेक्षा बड़ी योजनाएं बनाना अधिक लाभदायक है ?

**उत्तर—**बड़ी और छोटी दोनों ही प्रकार की योजनाएं बहुत आवश्यक हैं । दोनों के अपने-अपने लाभ हैं । बड़ी योजनाओं से नदियों का फालतू पानी जो बीसे बेकार ही रह जाता है काम में आ जाता है । उनमें बड़-बड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचता है, अभाव के समय के लिए अधिक सुरक्षा हो जाती है, और अक्सर उन्हें बहुदेशीय बनाकर उनमें बहुत-से काम लिये जाते हैं, जैसे सिंचाई, बिजली, नालिया, बाढ़ नियन्त्रण आदि । इनके विपरीत छोटी योजनाएं कम खर्च वाली होती हैं और उनके निर्माण में जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । उनसे लाभ भी जल्दी होता है और वे ऐसे क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं जहा बड़ी योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकती ।

इस प्रकार छोटी और बड़ी योजनाएं एक-दूसरे की पूरक हैं । योजना में इन दोनों के बीच समतुलन रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ।

**प्रश्न—**बिजली से गावों को नया जीवन मिलेगा । गावों में बिजली पहुंचाने के बारे में योजना में क्या मुझाव दिए गए हैं ?

**उत्तर—**भारत में गाव दूर-दूर बसे हुए हैं और उनमें से अधिकांश बिजली के विवसित माधनों की पहुंच से दूर हैं । गावों में व्यापक रूप में

विजली पहुँचाने का कार्यक्रम बहुत महंगा पड़ेगा और बिजलीघर खान और उनके रखरखाव पर व्यय भी बहुत अधिक होगा। इसलिए बिजली के कार्यक्रम को कई भागों में बाटना पड़ेगा।

योजना में कस्बा और गावों में बिजली लगाने के लिए ७५ करोड़ रुपया रखा गया है। इस धन में १०,००० से अधिक जनसंख्या वाले सब कस्बों और ५,००० तक की जनसंख्या वाले लगभग ८० से १० प्रतिशत गावों में बिजली लग जाएगी। जब इन कस्बों में बिजली लग जाएगी तो वे विकास के क्षेत्र बन सकेंगे और वहाँ आस-पास के गाव वालों को हाट-व्यवस्था, ऋण आदि की तथा और बहुत-सी बातों की सहायता मिल जाएगी।

कम जनसंख्या वाले स्थानों के लिए मुख्य ग्रिड लाइनों के समीपवर्ती गावों में बिजली पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। कोशिश यह है कि योजना काल में ५,००० से कम जनसंख्या वाले लगभग ८६०० गावों में बिजली पहुँचा दी जाए। इस प्रकार योजना की अवधि पूरी हो जाने पर लगभग १८,००० छोटे कस्बों और गावों में बिजली पहुँच जाएगी।

**प्रश्न—**देश के कुछ भागों में प्रायः हर साल ही बाढ़ आया करती है। इन्हें किस तरह रोका जाएगा ?

**उत्तर—**मही आकड़ों के न मिल सकने के कारण अभी बाढ़-नियंत्रण की व्यापक योजनाएँ नहीं बन सकी हैं, परन्तु फिर भी इस काम को तीन भागों में बाटा जा सकता है (१) तात्कालिक कार्य—इसके अन्तर्गत छानबीन योजनाएँ बनाने और चूने हुए स्थानों में निर्माण के काम आते हैं, (२) अस्थायी कार्य—इसके अन्तर्गत किनारों पर पुष्टे बाधने और नदी को गहरा करने के काम किए जाएंगे, और (३) दीर्घकालीन कार्य—इसके अन्तर्गत पाटियों का बहुदूरदामी विकास करने के लिए नदियों पर जलाशय बनाए जाएंगे।

दूसरी योजना में तात्कालिक और अल्पकालीन कार्यों के लिए ६० करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। बाढ़-निवन्त्रण के लिए नदियों के ऊपरी भागों में भूमि संरक्षण और जंगल लगाने का काम भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। योजना के कृषि क्षेत्र में उसके लिए व्यवस्था की गई है।

**प्रश्न—**उपर्युक्त योजना कार्यों की सफलता में जनता अपना सहयोग किस प्रकार दे सकती है ?

**उत्तर—**जनता अपना सहयोग निम्नलिखित ढंग से दे सकती है

- (१) बड़ी योजनाओं के लिए विशेष रूप से लिये जाने वाले ऋण में अपना हिस्सा देकर,
- (२) उन्नति शुल्क और बढ हुए आबयाने को महर्पे स्वीकार करके,
- (३) नहरों की खुदाई सडकें बनाने और बाढ रोकने के लिए बाध बनाने आदि कामों के लिए ग्राम सहकारी समितिया बनाकर,
- (४) राज्यों के सिंचाई कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त जल को किफायत से खर्च करके और उसका अधिकतम लाभ उठाकर और
- (५) निजी सिंचाई कार्यक्रमों को मुव्यवस्थित ढंग से चलाकर।

## सामुदायिक विकास

**प्रश्न—सामुदायिक विकास के क्या मायने हैं ?**

उत्तर—सामुदायिक विकास स्वयं ग्रामवासियों के प्रयत्नों के सहारे गावों की सामाजिक और आर्थिक काया पलट देने का आन्दोलन है। इसका उद्देश्य यह है कि गाव वालों पर जबरदस्ती मुघार लादने के बजाय उनमें अपनी उन्नति स्वयं करने की इच्छा पैदा की जाए। इसलिए उनके साथ सम्पर्क विविध विभागों से सम्बद्ध अधिकारियों के जरिए नही ग्रामसेवक के जरिए स्थापित किया जाता है जो उन्हीं के बीच रहता और उनमें नए विचार जगाता है। किसानों की कठिनाइयाँ दूर करने और ग्राम जीवन का विकास करने के काम में उसे राज्य के विकास विभाग का पूरा समर्थन प्राप्त होता है।

**प्रश्न—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कौन-से कार्यक्रम किए जाएंगे ?**

उत्तर—इस कार्यक्रम के विशेष क्षेत्र कृषि, पशुपालन और मिर्चाई हैं जो कि ग्राम जीवन के मुख्य आधार हैं। इसके अतिरिक्त, मत्तार माधनों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागम, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं

आदि की ओर भी ध्यान दिया जाता है। इधर दूसरी योजना में कुटीर उद्योगों के विकास, सहकारिता, स्त्रियों, बच्चों तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए विविध कार्यक्रमों में वृद्धि करने की ओर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है जो कि अब तक उपेक्षित पड़े थे।

उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ६०,००० से ७०,००० तक जनसंख्या वाले लगभग १०० गावों के एक क्षेत्र को चुन लिया जाता है। इस प्रकार का प्रत्येक क्षेत्र विकास खण्ड कहलाता है।

**प्रश्न—राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्या है ?**

उत्तर—ग्राम विकास के लिए 'विस्तार' शब्द का प्रयोग गाव वानों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के अर्थ में किया जाता है जिससे कि वे अपनी अवस्था सुधार सकें। राष्ट्रीय विस्तार सेवा इस उद्देश्य को पूरा करने वाले ग्रामसेवक आदि कार्यकर्ताओं का एक जाल-सा है। प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक खण्ड विकास अधिकारी, सात विस्तार अधिकारी और दस ग्रामसेवक नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को पूरा करने का एक अभिकरण है। अक्टूबर १९५३ में आरम्भ होकर यह पहली योजना के अन्त तक भारत के लगभग एक-चौथाई देहातों में फैल गया था। आशा है कि १९६०-६१ तक इसका प्रसार पूरे देश में हो जाएगा।

**प्रश्न—इया विकास के लिए चुने गए सब क्षेत्रों में समान रूप से काम किया जाता है ?**

उत्तर—नहीं, कुछ क्षेत्रों में अधिक गहन रूप से काम होता है। १९५२ में जब सबसे पहले सामुदायिक विकास खण्डों की स्थापना हुई थी, उस समय यह सोचा गया था कि उनमें तीन वर्ष तक कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से काम किया जाएगा। एक साल बाद जब राष्ट्रीय विस्तार

सेवा का आरम्भ हुआ तब यह अनुभव किया गया कि उतने गहन आधार पर कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन और प्रशिक्षित व्यक्तियों दोनों की ही कमी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कार्यक्रम को हिस्सों में बांट दिया गया—पहला हिस्सा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का तीन साल के लिए और दूसरा हिस्सा गहन विकास का और तीन साल के लिए।

विक्रम के लिए चुने गए सारे नए खण्डों में इसी तरह काम होता है। इन ६ वर्षों के बाद विकास खण्डों का तीसरा हिस्सा, अर्थात् गहन विकासोत्तर हिस्सा आता है, जिसमें रा० वि० सेवा राज्य के सारे विकास विभागों के स्थायी प्रशासकीय अभिकरण के रूप में काम करती है।

दूसरी योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ३,६०० नए विकास खण्ड-बनाने की आवश्यकता है जिनमें से लगभग एक-तिहाई गहन कार्य के लिए चुने जाएंगे।

**प्रश्न—**क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ग्राम विकास के लिए एक स्थायी अभिकरण बन जाएगी ?

**उत्तर—**विचार है कि ग्रामवासियों को अपना जीवन उन्नत बनाने में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा का काम जारी रखा जाएगा। इसके अनावा आशा है कि सामुदायिक विकास कार्य दिन-दिन राज्य के कल्याण कार्यक्रमों के साथ समन्वित होते चले जाएंगे।

**प्रश्न—**यह समन्वय किस प्रकार लाया जाएगा ?

**उत्तर—**इसके लिए सगठन का एक ऐसा तरीका निकाला गया है जिसमें यह समन्वय अपने आप ही हो रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का काम भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय की देख-रेख में हो रहा है। राज्यों में एक राज्य विकास समिति है, जिसके सदस्य विभाग विभागों के मंत्री और अध्यक्ष वहाँ का मुख्यमंत्री हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी, जो विकास आयुक्त (डेवलपमेंट कमिश्नर) कहलाता है, समिति का मंत्री होता है। इसके नीचे विकास विभागों के मुख्य अधिकारी काम करते हैं। इसी तरह जिलों में कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर और नीचे स्तर पर सब-डिवीजनल अफसर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ यही उत्तरदायित्व निभाते हैं। सब-डिवीजनल अफसर के बाद १०० गावों के एक खण्ड का अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी (ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर) होता है। गावों में ग्रामसेवक पंचायतों, गावों के वयोवृद्ध व्यक्तियों और पाठशालाओं के शिक्षकों आदि की सहायता से यह काम करता है।

इस प्रकार सामुदायिक कार्यक्रम को राज्य के सामान्य क्रिया-कलापों के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि स्वयंसेवा पर आधारित एक संगठित और स्थायी कल्याण कार्यक्रम की रचना हो सके।

## उद्योग

प्रश्न—योजना में उद्योगों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का क्या स्थान रहेगा ?

उत्तर—देश में समाजवादी समाज स्थापित करने के उद्देश्य के अनुसार १९४८ की औद्योगिक नीति को सशोधित किया गया। इससे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वह यह है कि राज्य ने औद्योगिक विकास का उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सीधे अपने हाथों में ले लिया है। अप्रैल १९५६ के नए औद्योगिक नीति बकनव्य के अनुसार औद्योगीकरण को तेज करने, विशेष रूप से बड़े उद्योगों को विकसित करने, सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक विस्तार करने और निजी उद्योगों में एक बड़े और वर्तमान सहकारी क्षेत्र की स्थापना करने पर जोर दिया गया है। जिन उद्योगों का विकास केवल राज्य करेगा, वे हैं शस्त्र और गोला-बारूद और मुद्रणमशीन, अणुशक्ति, लोहा और इस्पात, भारी मयन और मशीनें, कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, हवाई जहाज और रेल परिवहन, जहाज निर्माण और टेलीफोन। इनके अतिरिक्त, लोहा, मंगनीज और खनिज तेल आदि महत्वपूर्ण खनिजों और तांबा, सोडा, जस्ता आदि की खुदाई और विधायन का काम भी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कुछ दूसरे उद्योग, जैसे अल्यूमीनियम, मशीन टूल, दूसरी धातुओं का विनास,



उर्वरक, सड़क और जल परिवहन आदि अधिकाधिक राज्य के अधिकार में आते जाएंगे, परन्तु राज्य के प्रयत्न के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लिए भी काफी गुंजाइश रहेगी। तोप उद्योग सामान्यतया निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए गए हैं, परन्तु उनके योजनाबद्ध विकास के लिए नियमन अधिकार राज्य के होंगे।

**प्रश्न—**बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास के लिए किन निधियों की व्यवस्था की गई है ?

**उत्तर—**सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए ६१७ करोड़ रुपये की पूर्वा लगावों का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त ७३ करोड़ रुपये खनिज विकास के लिए रखा गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत (स्वदानों की खुदाई, बिजली का उत्पादन एवं वितरण, बागान और छोटे उद्योगों को छोड़कर) बनाए गए कार्यक्रमों पर लगभग ७२० करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें से ५७० करोड़ रुपये नए विनियोगों पर और १५० करोड़ रुपये वर्तमान कारखानों के प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाएगा।

**प्रश्न—**औद्योगिक सामर्थ्य के विस्तार के लिए निर्धारित प्राय-भिकताओं का जम क्या है ?

**उत्तर—**ये प्रायभिकताएँ इन प्रकार हैं

- (१) लोहा व इस्पात और भारी रासायनिक पदार्थों के उत्पादन, (इनमें नवजननीय खादें शामिल हैं), भारी इजीनियरी सामान तथा मशीनें बनाने वाले उद्योगों का विकास
- (२) अन्य विकास पदार्थों और उत्पादक शक्त के निर्माण की सामर्थ्य का विकास, जैसे अल्यूमीनियम, सीमेन्ट, रासायनिक लुगदी रंग और आवश्यक दवाएँ
- (३) वर्तमान महत्वपूर्ण उद्योगों का आधुनिकीकरण और नवीकरण जैसे पन्सन, सूती कपड़ा और चीनी,

१५ जोड़हीन डिब्बा कारखाना	५ २	} १०'०
१६ छोटी लाइन के सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए कारखाना	—	
१७ भारतीय टेलीफोन उद्योग (विस्तार)	४ १*	० ५

प्रश्न—निजी उद्योगों का विकास ठीक ढंग से हो, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर—१९५१ के उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य को किसी भी उद्योग की जाच-पड़ताल करने का अधिकार है, और उसके बाद यदि उस उद्योग का प्रबन्ध ठीक ढंग से न हो रहा हो तो राज्य उसे अपने अधिकार में ले सकता है। निजी उद्योगों को व्यवस्थित करने के लिए इस अधिनियम में दो बातें विशेष रूप से कही गई हैं— एक है लाइसेंस देना और दूसरे, अलग अलग उद्योगों के लिए विकास परिपदे मंगाने के लिए इसमें दो समीक्षा समितियाँ बना दी गई हैं। नई श्वाइस स्थापित करने के लिए तथा सामर्थ्य का विस्तार करने के लिए जो अज्ञिया आती हैं, उनकी जाच लाइसेंस समिति करती है। स्मरण रहे, लाइसेंस समिति का काम मन्त्रालय को केवल परामर्श देना ही है। लाइसेंस लेने वाला को निश्चित समय के अन्दर कुछ कार्यवाहियाँ भी पूरी करनी पड़ती हैं।

उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत बहुत-से उद्योगों, जैसे भारी रासायनिक पदार्थ उद्योग, साइकिल उद्योग, चीनी उद्योग, विजली उद्योग और औषधि निर्माण उद्योगों के लिए विकास समितियाँ बना दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, निजी उद्योगों पर सगोचित कम्पनी अधिनियम द्वारा भी प्रभुत्व रखा गया है ताकि निजी उद्योगों का प्रबन्ध स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार होता रहे।

\*मैंगूर सरकार द्वारा लगाए गए ३१ लाख रुपये इसके अतिरिक्त हैं।

**प्रश्न—विदेशी पूजा क सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?**

उत्तर—इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि यदि किसी वस्तु-विशेष के उत्पादन की पर्याप्त सामर्थ्य देश में न हो तथा विदेशों से टेकनीकल सहायता ली जाती हो, तब वह विदेशी पूजा आमंत्रित कर सकती है ।

वैसे सरकार की कोशिश यही रहती है कि जहा तक हो सके स्वामित्व और नियंत्रण भारतीयों के हाथों में ही रहें, और भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आगे चलकर वे विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर काम सभाल सकें ।

देश में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए विदेशी पूजा मिल सके, इसके लिए सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि औद्योगिक नीति लागू करने में देशी और विदेशी प्रतिष्ठानों में किसी प्रकार की भेदभाव की नीति नहीं बरती जाएगी । इसके अतिरिक्त, विदेशियों को इस देश में जो लाभ प्राप्त होगा, उसे अपने देश में भेजने के लिए तथा पूजा के वापिस लौटा लेने के लिए (परन्तु विदेशी मुद्रा की स्थिति का ध्यान रखते हुए) उन्हें समुचित सुविधाएँ प्रदान की जाएगी । यदि राष्ट्रीयकरण की नीबत आई तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा ।

अनुमान है कि योजनाकाल में निजी क्षेत्र के उद्योग कार्यक्रमों के लिए लगभग १०० करोड़ रुपए की विदेशी पूजा, जिसमें सम्भरणकर्ताओं की पूजा भी सम्मिलित है, प्राप्त हो सकेगी ।

**प्रश्न—योजना में उद्योगों पर जो विशेष जोर दिया गया है, उससे खनिज उत्पादन को और भी बढ़ाना होगा । महत्वपूर्ण खनिजों के सम्बन्ध में योजना क लक्ष्य क्या है ?**

उत्तर—योजना में खनिज विकास के लिए ७३ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मुख्य लक्ष्य इस प्रकार है —

खनिज	मात्रा	१९५४ में उत्पादन	१९६०-६१ के लक्ष्य
कोयला	भास टन	३७०	६००
कच्चा लोहा	"	४३	१२५
मैंगनीज	"	१४	२०
सूना पत्थर	"	अप्राप्य	२३३
त्रिफसम	"	६-१	१६७
बाक्साइट	हजार टन	७५	१७५

खनिज विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली बात यह है कि कोयला उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में केवल राज्य ही नए साधनों की खोज करेगा। राज्य के वर्तमान कार्यों में भी विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निजी खानों से कहा गया है कि वे भी अपना कुल उत्पादन एक करोड़ टन तक बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि देश के तेल साधनों की खोज और विकास कार्य को योजना में विशेष प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि देश में तेल का वर्तमान उत्पादन प्रायः नगण्य है।

## कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग

प्रश्न—राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में ग्राम उद्योगों और छोटे उद्योगों का क्या स्थान है ?

उत्तर—उद्योग देश के आर्थिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। यदि ठीक ढंग से इनका विकास किया जाए, तो इनसे लोगों को बहुत-से काम-बन्ध मिल सकते हैं, लोगों की आमदनी और जीवन-स्तर ऊंचा उठ सकता है और ग्रामों की अर्थ-व्यवस्था अधिक सन्तुलित हो सकती है। टेक्नीकल उन्नति के साथ-साथ गांवों के उद्योगों का ढांचा भी बदल सकता है और साधारण धंधों के स्थान पर छोटी-छोटी उद्योग इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं, जिससे लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताएँ भी पूरी हो सकेंगी। इस प्रकार ग्राम उद्योगों और छोटे उद्योगों को अर्थ-व्यवस्था में एक प्रगतिशील और समर्थ विकेंद्रित क्षेत्र के रूप में स्थान देना होगा जो कि एक ओर तो कृषि और दूसरी ओर बड़े उद्योगों के साथ सम्बन्धित होगा।

प्रश्न—कुटीर उद्योगों और छोटे उद्योगों को बड़े कारखानों के मुकाबले में नुकसान उठाना पड़ता है। यह मसला किस प्रकार हल किया जा सकता है ?

उत्तर—इस मसले का हल यह है कि उन क्षेत्रों में जहाँ छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उत्पादक हैं, सामान्य उत्पादन कार्यक्रम बनाए जाएँ।

इसके लिए योजना उद्योग ने निम्नलिखित कुछ उपायों में एक या सभी को काम में लाने की सिफारिश की है —

- (१) दोनों के उत्पादन क्षेत्रों का या तो निर्धारण कर दिया जाए या एक-दूसरे के उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित रखे जाए ,
- (२) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ बड़े उद्योगों की सामर्थ्य का विस्तार न होने दिया जाए, और
- (३) बड़े उद्योग पर उपकर लगा दिया जाए ताकि उसी प्रकार का सामान बनाने वाले छोटे उद्योग को लाभ पहुँचे ।

अभीष्ट विकेंद्रित क्षेत्र बनाने के लिए छोटे और बड़े उद्योगों में—चाहे स्वतन्त्र छोटे उद्योग हो अथवा पुँजे बनाने वाले उद्योग हो—उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित कर देना अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु बड़े उद्योगों की उत्पादन सामर्थ्य सीमित करने में पहले यह बात देखनी होगी कि उस वस्तु विशेष को कुल मांग कितनी है और छोटे उद्योग उसे कहा तक अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं । बड़े उद्योग पर उपकर लगाकर छोटे उद्योग को सुदृढ़ बनने के लिए समय और अवसर दिया जा सकता है, परन्तु ऐसा करते समय हर उद्योग की सामर्थ्य पर दृष्टि रखना अत्यावश्यक है ।

प्रश्न—कारखानों में स्पर्धा के अतिरिक्त, कुटीर उद्योगों और छोटे उद्योगों को किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें दूर करने के क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर—कुटीर उद्योगों और छोटे उद्योगों की कठिनाइयाँ मक्षेप में ये हैं कि उन्हें टेक्नीकल और आर्थिक सहायता नहीं मिलती तथा उनके पास मरम्मत और रख-रखाव आदि तथा खरीदने और बेचने की उचित मूविषाएँ नहीं हैं ।

ग्राम और लघु उद्योग समिति की रिपोर्ट तथा १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव की दृष्टि में रखने हुए इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्न उपायों की सिफारिश की गई है —

- (१) विकेन्द्रित क्षेत्र की मगठन मम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक सहकारी समितिया (मभरण और हाट-व्यवस्था तथा उत्पादक सहकारी संस्थाएँ दोनों) बनाई जाए,
- (२) ऋण देने की सुविधाएँ बढ़ाई जाए जिन्हें विशेष रूप से रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और राज्य वित्त निगम प्रदान करे,
- (३) जहाँ मम्भव हो, वहाँ पावर (विजली) लगाई जाए, तथा
- (४) औद्योगिक बस्तिया तथा ग्राम सामुदायिक कारखाने स्थापित किए जाए जो अन्ततः औद्योगिक उन्नति के केन्द्र-स्थल बन जाए।

दूमरी योजना की अन्वधि में छोटे उद्योगों के लिए सेवा मस्थानों की संख्या ४ में बढ़ाकर २० कर देने का निश्चय किया गया है। इसमें और अधिक टेक्निकल सहायता प्रदान की जा नकेगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी किस्त-खरीद आधार पर मशीनें खरीदने तथा ऋणों का प्राप्न करने आदि मम्बन्धी योजनाएँ शुरु करके सहायता प्रदान करेगा।

प्रश्न—योजना में ग्राम उद्योगों और छोटे उद्योगों के लिए २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें से कितना-कितना धन विभिन्न काम-धर्मों के लिए रखा गया है ?

उत्तर—यह विभाजन इस प्रकार होगा —

उद्योग	परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
१. हथकरघा — — — —	५९५
२. खादी (अम्बर चरखा कार्यक्रम को छोड़कर) —	१६७

३. ग्राम उद्योग			३८.८
४. दस्तकारिया	...	.	६०
५. रेशम कीट पालन	...	...	६०
६. नारियल जटा की कतारई-बुनाई			१०
७. छोटे उद्योग	...	...	५५०
८. सामान्य कार्यक्रम	...	...	१५०
			<hr/>
		जोड़	२०००
			<hr/>



## परिवहन और संचार

प्रश्न—योजना पर जितना खर्च होगा, उसका लगभग २६ प्रतिशत परिवहन और संचार के लिए रखा गया है। योजना में इस कार्यक्रम को इतना महत्व क्यों दिया गया है और यह व्यय किस प्रकार किया जाएगा ?

उत्तर—विश्वयुद्ध और देश के विभाजन के फलस्वरूप हमारी परिवहन व्यवस्था पर काफी दबाव पैदा हो गया था। अब देश में जो बहुत-से नए आर्थिक विकास के कार्यक्रम चालू हैं, उनके कारण भी उस पर उत्तरोत्तर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी योजना की अधि में विकास कार्यक्रम बहुत बढ़ जाएंगे और यदि समुचित परिवहन, विशेषकर रेल परिवहन की सुविधाएँ उपलब्ध न की गईं तो ये कार्यक्रम चट्टाई में पड़ जाएंगे। यही कारण है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवहन विभाग के कार्यक्रमों के लिए इतना अधिक धन निर्धारित किया गया है। स्थिति तो यह है कि यदि इससे भी अधिक धन हो तो उसका भी सदुपयोग किया जा सकता है।

परिवहन और संचार के लिए निर्धारित १,३८५ करोड़ रुपए में से, ६०० करोड़ रुपए केवल रेलों पर, २६६ करोड़ रुपए सड़कों और मड़क परिवहन पर, १०० करोड़ रुपए जहाजरानी तथा बन्दरगाहों पर,

४३ करोड़ रुपए नागरिक (सिविल) उद्भूयन पर, तथा ७६ करोड़ रुपए संचार तथा प्रसारण पर व्यय किए जाएंगे। योजना में रेलों के लिए निर्धारित ६०० करोड़ रुपए की धनराशि के अतिरिक्त भी २२५ करोड़ रुपए वर्तमान सामान के बदलने के लिए व्यय किए जाएंगे।

प्रश्न—रेल कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

उत्तर—पहली योजना की अवधि में रेलों की चल और अचल सम्पत्ति के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के जो कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे, उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी चालू रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, ज्यो-ज्यो उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और नए कार्यक्रम शुरू होते जाएंगे, रेलों को और अधिक माल आदि ढोना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, दबाव का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि नई पटरियाँ बिछाई जाएँ और रेल डिब्बों और इजनों में बड़ी मात्रा में वृद्धि की जाए। १९५५-५६ में रेलाने १ अरब १४ करोड़ टन माल ढोया था। अब अनुमान है कि १९६०-६१ में उन्हें १ अरब ८० करोड़ टन माल ढोना पड़ेगा। यह अनुभव किया जा रहा है कि रेलों के लिए जितनी धनराशि निर्धारित की गई है, उसने रेलें यानायात के पूरे भार को वहन करने में समर्थ नहीं हो सकेगी और हा सकता है जो सुविधाएँ प्रदान की गई हैं उनसे काम न चले।

रेलों के कार्यक्रम में अन्य कार्यों के साथ-साथ ८४२ मील लम्बी नई लाइनें बनाने, १,६०७ मील लम्बी लाइनों को दुहरा करने, ८,००० मील लम्बी पुरानी लाइनों को फिर से चालू करने, २,२५८ रेल इजनों ११,३६४ यात्री डिब्बे और १,०७,२४७ माल डिब्बे बनाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ८२६ मील लम्बी लाइनों पर बिजली में चलने वाली रेल गाड़ियाँ चलाने और १,२६३ मील लम्बी लाइनों पर डीजल रेल गाड़ियाँ चलाने की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान रेल कारखानों में सुधार करने, मयत्रों और मशीनों की मरम्मत करने

तथा नई इकाइया स्थापित करने के लिए भी काफी धनराशि की व्यवस्था की गई है। यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को कुछ और सुविधाएँ भी प्रदान की जाएगी।

**प्रश्न—**देशी उत्पादन से रेल के इंजनों, यात्री डिब्बों तथा माल डिब्बों की आवश्यकता कहाँ तक पूरी हो सकेगी ?

**उत्तर—**पहली योजना की अवधि में जितने रेल इंजन, सवारी डिब्बे और माल डिब्बे आदि प्राप्त करने का विचार है, उनमें से आशा है कि १,७५० इंजन, सारे सवारी डिब्बे और १,००,५२२ माल डिब्बे देशी साधनों से ही उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रकार इस अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रगति की जा रही है।

रेल इंजन बनाने का काम चित्तरजन कारखाने में तथा टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (टेल्वो) में होता है। चित्तरजन कारखाने ने १९५५-५६ में १२६ रेल इंजन बनाए। इसकी तुलना में द्वितीय योजना के अन्त तक प्रति वर्ष ३०० इंजन तक उत्पादन बढ़ाने के लिए इस कारखाने के लिए ५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी बीच आशा है कि टाटा कारखाना भी ५० के बजाय १०० छोटी लाइन के इंजन तैयार करने लगेगा। जहाँ तक सवारी डिब्बों का सम्बन्ध है, पैराम्बर-स्थित इन्टेग्रेस कोच फैक्टरी योजनाकाल में प्रति वर्ष बड़ी लाइन के २०० डिब्बे और अन्त में साज-सामान से लैस ३५० डिब्बे तैयार करने लगेगा। इसके अतिरिक्त, छोटी लाइन के सवारी डिब्बे बनाने का एक नया कारखाना भी कायम किया जाएगा। आशा है कि १९६०-६१ तक सवारी डिब्बों की उत्पादन संख्या १,२६० से बढ़कर १,८०० प्रतिवर्ष और माल डिब्बों की १४,००० से बढ़कर २५,००० प्रतिवर्ष हो जाएगी।

प्रश्न—रेल यात्रा को अधिक आरामदेह बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर—योजनाकाल में सवारी गाड़ियों में ३ प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात् कुल मिलाकर १५ प्रतिवर्ष वृद्धि हो जाएगी। फिर भी इससे सवारी गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम नहीं होगी, क्योंकि गाड़ियों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तीव्र गति में बढ़ती जा रही है।

यात्रियों को सुविधाएँ देने के कार्यों के अन्तर्गत एक तो रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा जिससे कि यात्रियों के लिए विश्राम गृह, प्रतीक्षा गृह, जलपान गृह और दुकानें आदि उपलब्ध की जा सकें। इसके अतिरिक्त, प्लेटफार्मों को चौड़ा, ऊँचा और लम्बा बनाया जाएगा तथा पुल बनाए जाएंगे। स्टेशनों पर अच्छे शौचालय, स्नान गृह और पानी की समुचित व्यवस्था तथा प्रतीक्षा गृहों में बिजली और बिजली के पखे, तथा बढ़िया सवारी डिब्बे उपलब्ध करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। कुछ जनता एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी, जिनमें तीन वातानुकूलित हैं, चालू की गई हैं जिनसे लम्बी यात्रा सस्ती, जल्दी और आराम से पूरी हो जाती है। इनके अतिरिक्त अब सब श्रेणियों के यात्री डाइनिंग कारों (भोजन डिब्बों) और विश्राम गृहों का प्रयोग कर सकते हैं।

यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के विवरण तथा कार्यक्रमों की प्राथमिकता, रेल उपभोक्ता सलाहकार समितियों के माध्यम से सलाह करके ही निश्चित की जाती है।

प्रश्न—सड़कों का विकास करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

उत्तर—सड़कों केन्द्र और राज्य सरकारों मिलकर बनाती हैं। राष्ट्रीय पथ प्रयत्न सड़कों के लिए सीधे केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार

हैं। राष्ट्रीय सड़कों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम में कुछ अन्य सड़कों, जैसे पासी-मदरपुर सड़क, पश्चिमी तटवर्ती एक सड़क, और पठानकोट तथा ऊधमपुर के बीच एक दूसरी सड़क का विकास करने की भी व्यवस्था सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के इस कार्यक्रम में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का विकास करने के लिए भी राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था है।

निम्न तालिका में पहली योजना में आरम्भ किए गए कार्यों का दूसरी योजना में चालू रखने के अतिरिक्त, उन सड़कों के कार्यक्रम का विवरण दिया गया है जिसकी जिम्मेदारी केन्द्र के ऊपर है —

### (१) राष्ट्रीय सड़कें

(क) परस्पर सड़कें मिलाने के लिए निर्माण कार्य	६०० मील
(ख) वर्तमान सड़कों में सुधार करना या उन्हें चौड़ा करना	८००० मील
(ग) बड़े पुल	६०

### (२) चुनी हुई सड़कें

(क) नई सड़कें	१५० मील
(ख) वर्तमान सड़कों में सुधार	५०० मील

### (३) अन्तर्राष्ट्रीय सड़कें और सोभान्त तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाने के विशिष्ट कार्यक्रम

(क) नई सड़कें	१००० मील
(ख) वर्तमान सड़कों में सुधार	२,००० मील

राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य की सड़कें तथा गांवों की सड़कें बनाने के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। दूसरी योजना की अवधि में राज्यों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग १८,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई जाएंगी। इन कार्यक्रम में पिछड़े प्रदेशों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

गावों में सड़कें बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने मील लम्बी सड़कें बनाई जाएगी, इसका सही अनुमान लगाना तो कठिन है परन्तु इस कार्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य मन्थाओं से काफी सहायता मिलेगी।

**प्रश्न—**योजना में जहाजरानी के विकास से सम्बन्धित मुख्य लक्ष्य क्या है ? इस नीति को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा ?

**उत्तर—**जहाजरानी के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखे गए हैं उनमें से एक तो यह है कि तटीय व्यापार की सब आवश्यकताओं का पूरा किया जाए, और ऐसा करते हुए रेनों के कुछ यात्रायात को तटीय जहाजरानी की ओर माड़ दिया जाए, दूसरे, टैंकर बेडा तैयार किया जाए, और तीसरे, धीरे धीरे देश के विदेशी व्यापार का हिस्सा भारतीय जहाजों का दिलाया जाए।

१९५५-५६ में तटीय जहाजों की भारवहन क्षमता ३,१२,००० टन थी। प्रस्ताव है कि तटीय व्यापार की सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहाजों की भारवहन क्षमता ४,१२,००० टन तक बढ़ा दी जाए। धारा है कि टैंकर बेडे की भारवहन क्षमता भी ५,००० टन से बढ़कर २३,००० टन हो जाएगी। विचार है कि योजनाकाल में कुल मिलाकर भारतीय जहाजों की भारवहन क्षमता लगभग ६,००,००० टन अर्थात् पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक की भारवहन क्षमता से दुगुनी कर दी जाए। इससे भारतीय जहाज देश के समुद्री व्यापार का करीब १२ से १५ प्रतिशत और निर्यात देशों के साथ व्यापार का ५० प्रतिशत काम सम्भालने में समर्थ हो जाएंगे। किन्तु जहाजों के मूल्य बढ़ जाने के कारण वर्तमान साधनों से हमारे जहाजों की भारवहन क्षमता केवल १,८०,००० टन ही और बढ़ाई जा सकेगी।

जहाजरानी का निस्तार करने के कार्यक्रम के लिए ३७ करोड़ रुपए की ध्यवस्था की गई है। इसमें से करीब २० करोड़ रुपए ईस्टर्न

शिपिंग कारपोरेशन तथा एक नई कारपोरेशन पर (जो पश्चिम एशिया के लिए जहाज चलाएगी) खर्च किया जाएगा। बची हुई धनराशि में से निजी जहाजी कम्पनियों को सहायता दी जाएगी।

प्रश्न—योजना में बन्दरगाहों का आधुनिकीकरण करने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम क्या हैं ?

उत्तर—सक्षेप में उद्देश्य यह है कि गोदियों का आधुनिकीकरण करके उन्हें आवश्यक सामान से लैस किया जाए, जिससे देश में होने वाले विकास के कारण बड़े हुए व्यापार को सभाला जा सके। आशा है कि दूसरी योजना के पाच वर्षों में आयात और निर्यात व्यापार को सभालने में बड़े बन्दरगाहों की सामर्थ्य प्रतिवर्ष २ करोड़ ५० लाख टन में बढ़कर ३ करोड़ २५ लाख टन हो जाएगी।

बम्बई में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रिंस और विक्टोरिया गोदियों का विकास किया जाएगा ताकि हर ऋतु में उनमें जहाज आ-जा सके। इसका अतिरिक्त मिट्टी निकालकर गहराई बनाए रखने तथा भरममत्त करने के लिए दो अन्य बन्दरगाह भी बनाए जाएंगे। कलकत्ते में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किदरपुर और किंग जार्ज गोदियों का विकास किया जाएगा, तथा किदरपुर गोदी की घाट-दीवारों को मजबूत करने के अतिरिक्त, फ्लटा प्वाइट रीच पर नदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे। पवोटिंग क्राफ्ट के लिए भी काफी मात्रा में घन की व्यवस्था की गई है।

मद्रास में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आद्रं गोदी योजना का पहला चरण शामिल है। इसके अतिरिक्त तेन गोदी, योजना बन्दरगाही उपकरण तथा पवोटिंग क्राफ्ट पर व्यय किया जाएगा। कोचीन में तीन बर्य बनाने और ४ अतिरिक्त घाट बनाने की व्यवस्था की गई है। कडला बन्दरगाह में भी, जो तेजी से विकसित हो रही है, दो नई जेटिया बनाई जाएंगी। ये जेटिया अभी हाल में बनाई गई बार जेटियों के अतिरिक्त होंगी। स्मरण रहे कि कडला

बन्दरगाह का विकास इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि जो व्यापार पहले कराची बन्दरगाह के मार्ग से हुआ करता था, वह इस बन्दरगाह से होने लगे। विस्थापित व्यक्तियों के नगर गांधीधाम का भी और विकास किया जाएगा। विशाखापत्तनम में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां से तेल साफ करने के कारखाने के लिए तेल उतारने-लादने के दो घाटों के बनाने, फ्लोटिंग क्रैपट तथा वर्तमान घाटों पर माल लाने-ले जाने, अन्य उपकरण खरीदने तथा खनिज लोह तथा अन्य सामान के निर्यात का सुविधाजनक बनाने के लिए दो नए घाट तैयार करने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न—असैनिक (सिविल) उद्घुपन कार्यक्रम के दो अंग हैं—अच्छे हवाई अड्डे बनाना और अन्य आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध करना तथा हवाई सेवाओं को विकसित करना। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर—जहां तक हवाई अड्डों का सम्बन्ध है, योजना के कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि राज्यों की सब राजधानियों और दूसरे मुख्य नगरों में हवाई जहाज आने-जाने लगे। इस समय असैनिक उद्घुपन विभाग के अधीन २१ हवाई अड्डे हैं। पहली योजना की अवधि में नौ नए हवाई अड्डे बनाए गए थे और दो शुरू किए गए थे, जो अब पूरे होने वाले हैं। दूसरी योजना में ८ और हवाई अड्डे तथा ग्लाइडर अड्डे बनाने का विचार है। एक व्यापक निर्माण कार्यक्रम भी आरम्भ करना है जिसके अन्तर्गत उद्घुपन मार्गों (रूट-वे), हैंगरो, टेक्नीकल इमारतों, तथा भूमि पर प्रकाश का प्रबन्ध और दूर संचार तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।

१९५३ में वामु मेवाओ का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था ताकि उनमें योजनानुसार विकास किया जा सके। इस उद्देश्य से इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन और एयर-इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना क्रमशः



अन्तर्देशीय तथा वैदेशिक उड्डयन के लिए की गई। ये कारपोरेशन अपनी मेवाओं तथा मगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इंडियन एयरलाइन्स के जहाजों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी योजना में व्यवस्था की गई है। इस कारपोरेशन ने पहली योजना की प्रबंध में पाच वाइकाउण्ट हवाई जहाजों का आर्डर दिया था और अब पाच और हवाई जहाजों का आर्डर दिया गया है। वैदेशिक मेवाओं के लिए कुछ टर्बो-प्राप या जेट विमान खरीदे जाएंगे। दोनों कारपोरेशनों के कार्यक्रमों के लिए योजना में ३०५ करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

प्रश्न—डाक और तार विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या देहाती क्षेत्रों को आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया गया है ?

उत्तर—हां। डाक सुविधाओं का विस्तार करते हुए देहाती क्षेत्रों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। पहली योजना में लक्ष्य यह था कि दो मील के घेरे में बसने वाले गावों के प्रत्येक समूह के लिए, जिनकी कुल जनसंख्या २,००० के लगभग हो, एक डाकखाना खोला जाए, बराबर कि इसमें ७५० रुपए से अधिक वार्षिक हानि न हो और तीन मील के घेरे के अन्दर कोई डाकखाना न हो। दूसरी योजना में यह नीति उन गावों के लिए भी लागू होगी जो चार मील के घेरे में बसे हुए हैं और जिनकी जनसंख्या २,००० के करीब है अर्थात् जो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि डाक का वितरण पहले की अपेक्षा अधिक बार हो सके।

तार व्यवस्था कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है कि इस सेवा को छोटी-छोटी दूरियों के बीच अर्थात् देश में हर पाच मील की दूरियों पर उपलब्ध किया जा सके। गावों के प्रत्येक प्रशासन केन्द्र में डाक और तार कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

प्रश्न—प्रसारण कार्यक्रम को मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

उत्तर—पहली योजना की अवधि में प्रत्येक भारतीय भाषा के लिए कम से कम एक मम्प्रेषण केन्द्र (ट्रान्smीशन स्टेशन) स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें पूरी सफलता मिली है। इसके फलस्वरूप, दूसरी योजना में नए केन्द्र खोलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इन उपलब्ध सेवाओं को यथाम्भव अधिक क्षेत्रों में फैलाना।

यह काम मीडियम वेव और शार्ट वेव मम्प्रेषण यन्त्रों का उचित सामंजस्य करके ही पूरा किया जा सकता है। देश में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए तथा राष्ट्रीय प्रसारणों को हर केन्द्र में एक साथ प्रसारित करने के लिए दिल्ली में एक १०० किलोवाट का शार्ट वेव ट्रान्smीटर और १०० किलोवाट का मीडियम वेव ट्रान्smीटर स्थापित किया जाएगा। वैदेशिक सेवाओं को पुष्ट करने के लिए भी दिल्ली में दो १०० किलोवाट के शार्ट वेव ट्रान्smीटर और बम्बई, कलकत्ता, तथा मद्रास में ५० किलोवाट शार्ट वेव के ट्रान्smीटर स्थापित किए जाएंगे। देहानों भाइयों के लिए रेडियो सुनने की सुविधाओं में भी पर्याप्त वृद्धि की जाएगी और दूसरी योजना की अवधि में लगभग ६०,००० पचापनी रेडियो लगाए जाएंगे।

इन सब कार्यक्रमों के लिए योजना में ६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

## अध्याय १०

### शिक्षा

प्रश्न—योजना में शिक्षा के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है ?  
उसके परिणामस्वरूप शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं कितनी बढ जाएंगी ?

उत्तर—योजना में शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए ३०७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से ६५ करोड़ रुपए केन्द्र द्वारा और २४२ करोड़ रुपए राज्य सरकारों द्वारा व्यय किए जाएंगे । यह व्यय केवल नई शिक्षा संस्थाओं तथा वर्तमान शिक्षा संस्थाओं के विस्तार पर किया जाएगा, और पहली योजना की अवधि में आरम्भ की गई योजनाएं इसमें सम्मिलित नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई धनराशि में से १२ करोड़ रुपए से अधिक सामान्य शिक्षा के लिए तथा लगभग १० करोड़ रुपए सामाजिक शिक्षा के लिए हैं । विकास के विविध क्षेत्रों जैसे कृषि स्वास्थ्य, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और पिछड़े वर्गों के कल्याण आदि के कार्यक्रमों में भी शिक्षा सुविधाएं बढाने की व्यवस्था है ।

नक्षेप में, दूसरी योजना के शिक्षा सम्बन्धी मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं —

- (१) ६-११ वय वर्ग के ६३ प्रतिशत बच्चों की पढाई की व्यवस्था करना । १९५५-५६ में यह संख्या ५१ प्रतिशत थी ।

- (२) ११-१४ वय वर्ग के २३ प्रतिशत बच्चों की पढाई की व्यवस्था करना । १९५५-५६ में यह संख्या १९ प्रतिशत थी ।
- (३) १४-१७ वय वर्ग के १२ प्रतिशत बच्चों की पढाई की व्यवस्था करना । १९५५-५६ में यह संख्या ९ प्रतिशत थी ।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में समस्या वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की है न कि विस्तार करने की ।

प्रश्न—वर्तमान शिक्षा पद्धति की काफी आलोचना हुई है । इसको सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

उत्तर—शिक्षा पद्धति का एक मुख्य दोष यह है कि उसमें बौद्धिक और मैदानिक बातों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है जिससे बच्चे की प्रतिभा का स्वतन्त्र रूप में विकास नहीं हो पाता । इसलिए योजना आयोग ने पहली योजना में प्रस्ताव रखा था कि प्राइमरी स्कूलों की धीरे-धीरे वैमिक स्कूलों में बदल दिया जाए जिससे सामाजिक दृष्टि में उपयोगी शिल्पों द्वारा शिक्षा देकर बच्चों के मस्तिष्क, मन और हाथों को शिक्षित किया जा सके । १९५५-५६ में इस प्रकार के ४१,९८९ स्कूल (उत्तर प्रदेश के ३१,९८९ वैमिक प्राइमरी स्कूलों को मिलाकर) थे । दूसरी योजना में ३३,४०० अतिरिक्त स्कूल खोलने का लक्ष्य है ।

पार्याप्त और प्रारम्भिक शिक्षा में अधिक धनिष्ठ सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिल्पों तथा विविध पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाएगा और वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा के लिए और भी सुविधाएँ दी जाएगी तथा अधिक टेक्नीकल स्कूल खोले जाएंगे । ये उपाय इस दृष्टि में किए जा रहे हैं ताकि नवयुवकों को अर्धकुशल कारीगरों के रूप में नौकरी पाने या अपने छोटे-छोटे कारोबार शुरू करने

के अवसर मिले । इसमें एक तो मैट्रिक पास लड़को में बेरोजगारी बन हो जाएगी, और दूसरे, माट कालेजो में प्रवेश पाने के लिए छात्रों की मर्यादा घट जाएगी ।

विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रस्ताव है कि डिग्री कोर्सों में तीन साल का बना दिया जाए, ट्यूटोरियल तथा अध्ययन गोष्ठियों का संगठन किया जाए, इमारतों, प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों में सुधार किया जाए, छात्रावासों तथा छात्रवृत्तियों की सुविधाएँ उपलब्ध की जाएँ तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अध्यापकों को अच्छे वेतन दिए जाएँ । इनके अतिरिक्त, दूसरी योजना में १० देशीय मस्थान खोले जाएँगे, जिनमें उच्च शिक्षा तथा शोध कार्य की, विशेषरूप से ग्राम सम्बन्धी विषयों का अध्ययन करने की सुविधाएँ उपलब्ध की जाएँगी । इस प्रकार गाँवों में विकास कार्य के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा ।

प्रश्न—देश में टेकनीकल ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की माँग दिनोदिन बढ़ती जा रही है । इसे पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर—दूसरी योजना में इंजीनियरी शिक्षा के लिए काफी सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी, और इसके लिए ५३ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । अखिल भारत टेकनीकल शिक्षा परिषद् ने जिन चार उच्च टेकनालॉजिकल मस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश की थी, उनमें से एक कुछ माल पहने इंडियन इस्टीमेट यूट आफ टेकनालॉजी के नाम से खडगपुर में खोला जा चुका है । दूसरी योजना में इस मस्थान का विकास किया जाएगा और दोष तीनों मस्थान निश्चित कार्यक्रम के अनुसार देश के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अर्थात् बम्बई, कानपुर और भद्राम में खोले जाएँगे । इसके अतिरिक्त, डिग्री स्तर के छ मस्थान और डिप्लोमा स्तर के २१ मस्थान खोले जाएँगे ।

कुछ अन्य योजनाओं के अन्तर्गत दिल्ली पोलिटेकनिक, इंडियन स्कूल आफ साइन्स एण्ड एप्लाइड जिजोलोजी, धनबाद, और सेंट्रल इन्स्टीट्यूट फार प्रिंटिंग टेक्नालाजी में प्रशिक्षण की सुविधाएं और बड़ाई जाएगी। वर्तमान टेक्नीकल स्कूलों और कालेजों का विकास करने, नए स्कूल और कालेज खोलने, छात्रवृत्तियां देने, छात्रावास बनाने तथा टेक्नीकल शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) चालू करने की भी व्यवस्था की गई है।

आशा है कि इन कार्यक्रमों के कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप १९६०-६१ में इजीनियरी मस्याएं डिग्री पाठ्यक्रम के लिए ८ १२० और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए ११,३०० छात्रों को भर्ती करने में समर्थ हो जाएंगे। १९५५-५६ में यह संख्या क्रमशः ६ ३२० और ८ ७०० थी। जूनियर टेक्नीकल स्कूलों में भर्ती की संख्या भी ५,४०० तक पहुंच जानी चाहिए। परन्तु इजीनियरी नर्मचारी मिति का कहना है कि इतना होने पर भी हानागी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए यह आवश्यक है कि डिग्री देने वाली मस्याओं की सामर्थ्य में २० प्रतिशत और डिप्लोमा देने वाले मस्याओं की सामर्थ्य में २५ प्रतिशत तक वृद्धि कर दी जाए। इस मिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि १८ इजीनियरी कालेज और ६२ नए पोलिटेकनिक स्कूल खोले जाए।

इन योजनाओं के अतिरिक्त, थम, रेल, तथा लोहा और इस्पात मंत्रालय ने कुशल नर्मचारियों और निरीक्षक अधिकारियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपनी अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं।

प्रश्न—शिक्षकों के वेतन और उनकी सेवा की दशाओं में सुधार करने के लिए योजना में क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर—स्कूलों में शिक्षा का स्तर निम्न होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि शिक्षकों के वेतन बहुत कम हैं और उनकी सेवा की दशाएं

बहुत अमतोपजनक हैं। प्राइमरी और मॅकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन बढ़ा देने में जो अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, उसका ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को देना स्वीकार कर लिया है। कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की है।

शिक्षकों की सेवा की दशाओं में सुधार करने के लिए योजना आयोग ने सिफारिश की है कि सभी राज्य अपने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को उचित सेवा शर्तों में लाने के सम्बन्ध में विचार करें। इस प्रकार यदि शिक्षकों को स्थानीय मस्थाओं अथवा निजी मस्थाओं में भी काम करने के लिए भेजा गया तो भी उन्हें नौकरी की सुरक्षा, पेंशन भविष्य निधि (प्राविडेण्ट फण्ड) तथा तरक्की करने आदि की सुहूलियतें मिलती रहेंगी। आशा है कि इन उपायों के फलस्वरूप शिक्षा क्षेत्र की और प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित होने लगेंगे।

**प्रश्न—समाज शिक्षा से क्या तात्पर्य है, और योजना में इसका क्या स्थान है ?**

**उत्तर—**श्रीड शिक्षा को यदि लागू को पढ़ना-लिखना सिखाने तक ही सीमित कर दिया जाए तो इसमें जनतांत्रिक आधार पर सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त नहीं किया जा सकेगा। आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि श्रीड शिक्षा के अन्तर्गत श्रीडों की आर्थिक स्थिति सुधारने, उन्हें नागरिकता, और स्वास्थ्य के विषय में शिक्षित करने और अवकाश के समय का सदुपयोग करने के उपाय सिखाए जाएं। इसी व्यापक अर्थ में श्रीड शिक्षा को 'समाज शिक्षा' कहते हैं। इसके मायने ये हैं कि सम्मिलित प्रयत्नों द्वारा सामुदायिक विकास का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाए। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्थानीय निर्माण कार्यक्रम, बन्पाण बिम्बार योजना कार्य, सहकारिता आन्दोलन, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा भारत

मेंवक समाज जैसे स्वयंसेवी संगठनों के कार्यक्रम समाज शिक्षा व ही अग है ।

विशिष्ट लक्ष्यो की प्राप्ति के उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रमो का पूरा करने के लिए योजना मे १५ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है । इसमे १० करोड रुपए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए भी है । यह अन्तर्गत माहिन्य तथा समाज शिक्षा केन्द्र खालने, जनता कालेज और गुस्तवानय स्थापित करने, दृश्य-श्रव्य शिक्षा का प्रबन्ध करने और आयवर्ताग्रा का प्रशिक्षण देने के निमित्त व्यय की जाएगी ।



## स्वास्थ्य

प्रश्न—अस्पतालो की कमी दूर करने के लिए तथा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी प्राप्त करने के लिए योजना में क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर—नए अस्पताल खोलने और अस्पतालों में अधिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए तथा कर्मचारियों, उपकरणों स्थान सभरण सम्बन्धी सेवाओं में वृद्धि करने के लिए योजना में ४३ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें परिणामस्वरूप योजनाकाल के अन्त तक चिकित्सा मन्थाओं की संख्या बढ़कर लगभग १२,६०० और रांगी शय्याओं की संख्या लगभग १५५००० हो जाएगी। यह वृद्धि १९५५-५६ की तुलना में क्रमशः २६ प्रतिशत और २४ प्रतिशत होगी। इसके अतिरिक्त, देहली क्षेत्र में ३,००० में अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित करने के लिए २३ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

अनुमान है कि भारत में इस समय ७०००० डाक्टर हैं और १९६०-६१ तक १२,५०० डाक्टर और बन जाएंगे। परन्तु फिर भी हमें कम में कम ६०,००० डाक्टरों की आवश्यकता है। इसलिए योजना आयोग ने सिफारिश की है कि वर्तमान मेडिकल कालेजों में विस्तार किया जाए और कुछ नए कालेज खोले जाएं।

डाक्टरों की अपेक्षा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की स्थिति और भी अधिक चिन्ताजनक है। प्रशिक्षणकी सुविधाएँ बढ़ा देने के बावजूद भी कर्मचारियों की कितनी बर्बादी रहेगी, यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगा —

१९५५-५६ १९६०-६१ वांछित

उपचारिकाएँ (सहायक उपचारिकाएँ तथा प्रसाविकाएँ)	२२,०००	३१,०००	८०,०००
प्रसाविकाएँ (मिड वाइफ)	२६,०००	३२,०००	८०,०००
स्वास्थ्य निरीक्षक	८००	२,५००	२०,०००
उपचारिका-दाइया और दाइया	६,०००	८१,०००	८०,०००
स्वास्थ्य सहायक और सफाई निरीक्षक	४,०००	७,०००	२०,०००

प्रश्न—क्या देश में देशी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है ?

उत्तर—देशी चिकित्सा पद्धति की उन्नति करने के लिए योजना में जो व्यवस्था की गई है, उसमें से एक करोड़ रुपए केन्द्र द्वारा और ५ ५ करोड़ रुपए राज्यों द्वारा व्यय किए जाएंगे। इस धर्म कार्यक्रम के अन्तर्गत जामनगर की स्नातकोत्तर भस्मा और शोध केन्द्र को विकसित करने, ५ आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने और १३ वर्तमान महाविद्यालयों को बढ़ाने, १,१०० औपचारिक खोलने और २५५ वर्तमान औपचारिकों में सुधार करने की व्यवस्था की गई है। आशा है कि इन योजनाओं में आयुर्वेदिक मस्याओं में इतना सुधार हो जाएगा कि वे शोध कार्यक्रम प्रारम्भ करने में समर्थ हो सकेंगी।

प्रश्न—राष्ट्रव्यापी आधार पर मलेरिया की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी ?

उत्तर—मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगग्रस्त क्षेत्रों में कीटाणुनाशक औषधियाँ छिड़कने और रागियों को

का प्रबन्ध किया गया है। राज्तीय स्वास्थ्य विभागों की देखरेख में कुछ मलेरिया नियंत्रण इकाइयां काम कर रही हैं। मलेरिया नियंत्रण के सब कार्यक्रमों का समन्वय केन्द्र द्वारा किया जाता है। इस दिशा में प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र ने मलेरिया इन्स्टिट्यूट में व्यवस्था कर रखी है। दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाने को, जिनमें उत्पादन १९५५ में आरम्भ हो गया था, बड़ाकर दुगुना किया जा रहा है और आशा है कि १९५८ के अन्त तक केरल के अनवाय नामक स्थान में एक और कारखाना डी० डी० टी० का उत्पादन करने लगेगा।

१९५५-५६ के अन्त में १६२ मलेरिया नियंत्रण इकाइयां थीं। दूसरी योजना में यह संख्या २०० हो जाएगी। योजना के अन्तर्गत मलेरिया निरोधक कार्यक्रम के लिए २८ करोड़ रुपये रखे गए हैं। योजना आयोग का विचार है कि इससे पहले कि मलेरिया का मच्छर बहुत फैल जाए और उस पर डी० डी० टी० का कोई प्रभाव न पड़े, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम देश भर में आरम्भ कर दिया जाना चाहिए।

**प्रश्न—तपेदिक को रोकने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?**

**उत्तर—**तपेदिक भारत में प्रतिवर्ष लगभग ५० लाख लोगों को मौत की नौद मुला देता है। इसके प्रकोप को रोकने के लिए पहली योजना में देश भर में डी० डी० टी० के टीके लगाने का कार्यक्रम शुरु किया गया था। १९५५-५६ तक ७ करोड़ से अधिक ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा की जा चुकी है और इस मस्या के करीब तिहाई लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। दूसरी योजना में सुझाव रखा गया है कि २५ साल से कम आयु के उन सभी व्यक्तियों को टीके लगाए जाए जिन्हे तपेदिक हो सकता है। इसके अनतिरिक्त, २०० नए चेम्बट क्लिनिक खोले या बड़ाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेजों में सम्बद्ध २० नए शिक्षा और प्रदर्शन केन्द्र खोले जाएंगे और रांगमुक्त होने के बाद रोगी की देखभाल के लिए करीब इतने ही पुनर्वास

केन्द्र खोले जाएंगे। इन सब पर लगभग १४ करोड़ रुपया व्यय होगा।  
 ग्रामा है कि विभिन्न अस्पतालों आदि में तपेदिक के रोगियों के लिए करीब  
 ६,००० अधिक शय्याओं का प्रवन्ध कर दिया जाएगा।

प्रश्न—देहाती और शहरी क्षेत्रों में पानी मुहय्या करने के तरीको  
 में सुधार करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर—पानी के द्वारा फैलने वाले रोगों और ऐसी ही अन्य बीमारियों  
 में लाखों लोगों की जाने चली जाती है और जनता के स्वास्थ्य पर भी इनका  
 बड़ा बुरा असर पड़ता है। १९५४ में पानी मुहय्या करने और सफाई  
 का प्रवन्ध करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया था, परन्तु पहली  
 योजना में इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि उस समय  
 पम्प और पाइप तथा अन्य उपकरण प्राप्त करने और सावजनिक स्वास्थ्य  
 के लिए इंजीनियरी सेवाएँ उपलब्ध करने में बहुत कठिनाइयाँ पेश आईं।  
 इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए दूसरी योजना में कदम उठाए जाएंगे।  
 और शहरों में पानी मुहय्या करने और सफाई का प्रवन्ध करने के लिए  
 शहरों और पर ५३ करोड़ रुपए, गांवों में पानी का प्रवन्ध करने के लिए  
 २८ करोड़ रुपए और जिन नगरों में निगम हैं, उनके लिए १० करोड़  
 रुपए की विशेष व्यवस्था की गई।

प्रश्न—परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है, और इस सम्बन्ध में  
 सरकारी कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

उत्तर—परिवार नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश के  
 पास इतने साधन नहीं हैं कि वह अपनी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के  
 लिए अन्न-वस्त्र का समुचित प्रवन्ध कर सके। इस वृद्धि को रोकने के लिए

परिवार नियोजन की आवश्यकता देश की ग्राम जनता को समझ लेनी चाहिए। माताओं के अच्छे स्वास्थ्य और बच्चों के अच्छे पालन-पोषण दोनों दृष्टियों से भी यह बहुत आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वे भारत के सावर्जनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अति आवश्यक अंग हैं।

पहली योजना की अवधि में परिवार नियोजन के प्रति जनता में जागृति फैलाने की कोशिश की गई थी। जनता को परामर्श और सहायता देने के निमित्त औषधालय खोले गए थे और मानवीय प्रजनन शक्ति के सम्बन्ध में जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी बतों का अध्ययन करने के लिए दोध योजनाएँ आरम्भ की गई थी।

योजना आयोग का विचार है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है जब हम इस दिशा में आगे काम कर सकते हैं। इस उद्देश्य में योजना आयोग ने सिफारिश की है कि एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की जाए जो निम्न कार्यक्रमों को हाथ में ले —

- (१) पारिवारिक जीवन में एक व्यापक शिक्षा योजना का विचार करना जिसमें यौन (सैक्स), विवाह सम्बन्धी परामर्श और बच्चों का दिशा निर्देश करने के कार्यक्रम भी सम्मिलित होंगे,
- (२) परिवार नियोजन के लिए परामर्श आदि देने के लिए अतिरिक्त क्लिनिकों की स्थापना करना,
- (३) प्रजनन के जीव विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी शोधों के अनिश्चित जनसंख्या की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना,
- (४) सहायता प्राप्त मस्थाओं द्वारा किए गए काम का निरीक्षण और प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना, और
- (५) उपर्युक्त कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करना।

दूसरी योजना में परिवार नियोजन के लिए करीब ५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आशा है कि करीब ३०० क्लिनिक शहरों में और २,००० क्लिनिक देहाती क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

## अध्याय १२

### आवास

प्रश्न—भारत के शहरी इलाकों में मकानों की कमी के क्या कारण हैं? क्या इस स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है?

उत्तर—एक तो पिछले ३० वर्षों में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, और दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत-से लोग रोजगार की खोज में शहरों में आते जा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि शहरों में मकानों की बहुत कमी हो गई है। यह स्थिति विद्वययुद्ध के दिनों में और भी बिगड़ गई थी, क्योंकि तब मकान बनाने का काम बहुत मुस्त पड़ गया था। देश के बटवारे के बाद विस्थापित व्यक्तियों के आगमन के कारण यह समस्या और भी गम्भीर हो गई। पिछले कुछ दिनों से जमीन की कीमतें बढ़ जाने और इमारती सामान की कमी तथा ऊँची कीमतों के कारण स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है।

१९५१ में ६ करोड़ २० लाख शहरी आबादी के लिए लगभग १ करोड़ घर थे। उस समय छोटे तौर पर लगभग २५ लाख मकानों की कमी का अन्दाजा लगाया गया था। अनुमान है कि १९६१ तक शहरों की आबादी १९५१ की अपेक्षा एक-तिहाई और बढ़ जाएगी। अतः यदि समुचित उपाय न किए गए तो १९६१ में मकानों की यह कमी १९५१ की अपेक्षा दुगुनी हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्रों में बहुत सी

आवास योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। इन याजनाओं पर काम बग्न के बाद जो अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर ही कुछ वर्ष बाद मकाना को शमी को दूर करने के लिए सम्भवतः कुछ व्यापक गृह निर्माण योजनाएँ बनाई जा सकेंगी।

**प्रश्न—**योजना में आवास कार्यक्रम का क्या महत्व है ?

**उत्तर—**योजना में आवास के लिए कुल १२० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाएगा कि यह धनराशि किस प्रकार व्यय की जाएगी और निर्माण के लक्ष्य क्या हैं -

	सागत	लक्ष्य
	(करोड़ रु० में)	(संख्या)
राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	४५	१२८,०००
कम आय वालों के लिए आवास योजना	४०	६८,०००
शहरी आवास योजना	१०	—
गरीब बस्तियों को हटाना और भंगियों के लिए आवास योजना	२०	११०,०००
मध्यम आय वालों के लिए आवास योजना	३	५,०००
बागान आवास योजना	२	११,०००
<b>जोड़</b>	<b>१२०</b>	<b>३,२२,०००</b>

इनमें से कुछ कार्यक्रम तो पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। परन्तु शहरी इलाकों और मध्यम आय वालों के लिए आवास योजनाएँ तथा गन्दी बस्तियों को हटाने के कार्यक्रम नए ही हैं। शहरी आवास योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि इस क्षेत्र की समस्या विस्तार की नहीं सुधार की है।



उपयुक्त आकड़ों के अतिरिक्त, आशा है कि केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्यों तथा स्थानीय सस्थाओं द्वारा हाथ में लिये गए कार्यक्रमों के फलस्वरूप ७,५३,००० मकान आदि और बन जाएंगे। इससे अतिरिक्त, आशा है कि जनता स्वयं भी लगभग ८,००,००० मकान बना लेगी। इस प्रकार दूसरी योजना की अवधि में सम्भवतः १६ लाख मकान बन जाएंगे।

**प्रश्न—**देहाती इलाकों में मकानों की हालत किस प्रकार सुधारी जाएगी ?

**उत्तर—**देहाती इलाकों के ५ करोड़ ४० लाख मकानों में से अधिकांश मकान ऐसे हैं जिनकी मरम्मत करने या उनमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है। विशेषकर जनता के गरीब वर्गों की आवास समस्या को और नत्काल ध्यान दिया जाना है। प्रस्ताव है कि देहाती क्षेत्रों में लोग मकान स्वयं बनाए और सरकार उन्हें टेकनीकल परामर्श, प्रदशन, तथा स्थानीय परिस्थितियों तथा साज-सामान के उपयुक्त नए नक्शे आदि की व्यवस्था करके सहायता दे। योजना आयोग ने मुझसे कहा है कि पिछड़े वर्गों और भूमिहीन मजदूरों की सहकारी समितियां बनाई जाएं और उन्हें मुफ्त जमीन तथा आर्थिक सहायता दी जाए।

गृह निर्माण ग्राम पुनर्निर्माण की सामान्य योजना का ही एक अंग है इसलिए इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्यों के विकास विभाग और राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा भी सहायता दी जाएगी। केन्द्रीय निर्माण आवास और सभरण मन्त्रालय में एक ग्राम आवास प्रशाखा भी है, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्माण के उपयुक्त नक्शे तैयार करने और निर्माण के तरीके खोज निकालने की दिशा में कार्य कर रहा है।

**प्रश्न—**गन्दी बस्तियां हटाने और भंगियों के लिए मकानों का प्रवर्धन करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

उत्तर— गन्दी बस्तियों का हटाना आवास नीति का एक अति आवश्यक अंग है और इस कार्य को नगर योजना कार्य के साथ ही साथ आगे बढ़ाना चाहिए। बड़े-बड़े शहरों में अभी तक गन्दी बस्तियों की भरमार है। अब तक इन गन्दी बस्तियों को हटाने का काम इसलिए नहीं किया जा सका है, क्योंकि गन्दी बस्तियों को अपने अधिकार में लेने से बहुत अधिक कीमत देनी पड़ती थी और इन बस्तियों में रहने वाले वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यक है कि नए मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी जाए ताकि उनका किराया कम रखा जा सके। दूसरी योजना में नए कार्यक्रम बनाते समय उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखा गया था।

सरकार ने मविधान में मसोधन करवाकर गन्दी बस्तियों पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। गन्दी बस्तियों में रहने वालों को वहाँ या वहाँ आस-पास के ही स्थानों पर बसाया जाएगा, जिससे वे काम करने के स्थानों से दूर न जा पड़ें। इसके अतिरिक्त, मकानों का किराया कम रखने के लिए योजना में इन बातों पर जोर दिया गया है कि बड़े-बड़े मकान बनाने के स्थान पर आवश्यक मुविधाओं का प्रबन्ध किया जाए।

योजना आयोग ने सिफारिश की है कि गन्दी बस्तियों का हटाने में जो खर्च होगा केन्द्रीय सरकार उसका २५ प्रतिशत सहायता के तौर पर और ५० प्रतिशत दीर्घकालीन बर्ज के रूप में दे। शेष मन्त्र मन्वन्धित राज्य सरकारें स्वयं अपने निजी साधनों से जुटाए।

अधिकतर नगरों की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग मेहतर हैं इसलिए आता है कि काफी बड़ी संख्या में मेहतरों का नाम धरो में बसाया जा सकेगा।

## श्रम

प्रश्न—औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में योजना में क्या नीति अपनाई गई है ?

उत्तर—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से श्रमिकों के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह रही है कि मनुष्य व्यक्ति ही कुशल कार्यकर्ता हो सकता है। इस नीति का पालन करने के लिए श्रमिकों को काम की दशाओं तथा वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आवास कल्याण, रोजगार और प्रशिक्षण आदि की अनेक सुविधाएँ देने के लिए पग उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त मानिकों और श्रमिकों में विवाद न होने देने तथा विवाद उठने पर उनका फैसला कराने के भी प्रयत्न किए गए हैं।

उपर्युक्त नीति को पहली योजना में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इस नीति का समर्थन करते हुए योजना आयोग ने कहा है कि समाजवादी समाज की स्थापना करने के उद्देश्य में इस नीति में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। उम्मा कहता है कि मजदूर यह महसूस करने लगे कि वह भी प्रगतिशील राज्य की स्थापना में अपना योग दे रहा है, और उसे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। योजना आयोग ने ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों, कारखानारों और स्त्री मजदूरों

की समस्याओं की ओर भी ध्यान खींचा है और उनके कष्ट दूर करने के लिए उपाय भी सुझाए हैं।

प्रश्न—योजना में श्रम और श्रमिक कल्याण के लिए २६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह धन किस प्रकार के कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा ?

उत्तर—दूसरी योजना की अवधि में श्रम याजनाओं पर केन्द्रीय सरकार १८ करोड़ रुपए और राज्य सरकारें ११ करोड़ रुपए खर्च करेंगी। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं—

१. शिल्पकार प्रशिक्षण याजना के अन्तर्गत लगभग २०,००० और व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। कुशल शिल्पकारों का प्रशिक्षण देने के लिए एक याजना भी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त मशीनकार (इस्ट्रक्टर) का प्रशिक्षित करने के लिए भी एक दूसरा संस्थान खाना जाएगा।

२. श्रमिकों की ओर अधिक सुविधाएँ देने के लिए राज्य कर्मचारी बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना में कुछ मरामत करने का प्रस्ताव रखा गया है। समाज सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को सगठित कर देने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

३. रोजगार सेवा मण्डल का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत किया जाएगा। इसके अन्तर्गत युवकों को रोजगार दिलाने तथा नियोजन केन्द्रों (एम्प्लाय-मेंट एक्सचेंज) में रोजगार खोजने वाले लोगों को मलाह देने की भी व्यवस्था की जाएगी। इन केन्द्रों में विभिन्न उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक परीक्षाओं का भी प्रबन्ध किया जाएगा।

४. अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम संस्थान के कार्यक्षेत्र का विस्तार, प्रशिक्षण सम्बन्धी शिक्षाप्रद चित्र दिखाने के लिए एक छोटी फिल्म यूनिट की स्थापना, श्रमिकों के लिए आवास और शिक्षा की व्यवस्था तथा नए नवोदय कार्य आदि माने हैं।

## पिछड़े वर्गों का कल्याण

प्रश्न—क्या योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

उत्तर—हां, पिछड़े वर्गों की आर्थिक और सामाजिक दशा सुधारन के लिए योजना में अलग कायन्म है। योजना में इसक लिए कुल ६१ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें से ४७ करोड़ रुपए अनुसूचित आदिम जातियों के लिए ३६ करोड़ रुपए भूतपूर्व अपराधजीवी जातियों के लिए ६७ करोड़ रुपए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तथा २६ करोड़ रुपए प्रशासन के लिए रखे गए हैं।

प्रश्न—पिछड़े वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताएँ किस प्रकार पूरी की जाएगी ?

उत्तर—पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जितन भी कायन्म बनाए गए हैं उनमें शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उन्हें जीवन में उन्नति के पर्याप्त अवसर देने के लिए निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण, व्यावसायिक और टेक्नीकल प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ आदि दान की भी व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में योजना में ३० लाख में भी अधिक बजट तथा

छात्रवृत्तियाँ देने और ६,००० नए स्कूल और छात्रावास खोलने का भी प्रबन्ध किया गया है। इस सुविधाओं के फलस्वरूप पिछड़े वर्गों के लोग विभिन्न नौकरियों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गई रियायतों का लाभ उठा सकेंगे।

भूतकाल में अनुसूचित जातियों ने अस्पृश्यता के कारण बहुत कष्ट पाए हैं। जून १९५५ से अस्पृश्यता को कानूनन दंडनीय अपराध बना दिया गया है। राज्य सरकारों के सुधार कार्यक्रमों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने भी अनुसूचित जातियों के लिए आवास, जलपूर्ति और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए हैं।

आदिम जातियों की अपनी मस्कृति और परम्पराएँ हैं अतः उन्हें उनकी सस्थाओं के माध्यम से ही सहायता देनी चाहिए ताकि उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे। आदिम जातियों के लिए बनाए गए विकास कार्यक्रमों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अच्छे मचार मापन, शिक्षा तथा मस्कृति मम्बन्धी सुविधाएँ, उनकी अर्थ-व्यवस्था में तथा स्वास्थ्य, आवास और जलपूर्ति की सुविधाओं में सुधार। आदिम जातियों की सहकारी समितियाँ बनाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

भूतपूर्व अपराधजीवी जातियों के मम्बन्ध में चेष्टा यह की जा रही है कि उनमें सुव्यवस्थित सामुदायिक जीवन बिताने की आदत डाली जाए और उन्हें बच्चों को पुरानी समाज-विरोधी बातों से दूर रखा जाए।

## समाज कल्याण और पुनर्वासि

प्रश्न—समाज कल्याण के क्षेत्र में मुख्य संगठित कार्यक्रमों के विषय में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर—केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जिसकी सान्वाए विभिन्न राज्यों में भी हैं, प्रथम योजना में इस उद्देश्य में बनाया गया था कि स्त्रियों, बच्चों तथा असमर्थ लोगों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को संगठित करने में आ लोग स्वैच्छा से काम कर रहे हैं वह उनकी सहायता करे। इसके अतिरिक्त, इस बोर्ड ने कल्याण विस्तार कार्यक्रम की एक योजना को भी आरम्भ किया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और बच्चा के लिए कल्याण सेवाओं को संगठित करना है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक एक जिले में इन प्रकार के चार कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है। स्मरण रहे इस समय एक जिले में केवल एक ही कार्यक्रम चल रहा है। इस तरह ५०,००० गावा में कुल मिलाकर १,३२० कार्यक्रम चालू हो जायेंगे। समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य है परिवार कल्याण सेवाओं का विस्तार करना (जिसके अन्तर्गत निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की स्त्रियों को घर पर ही काम दिलाया जाएगा), तथा वेश्यावृत्ति में छुटकारा

दिलाई हुई स्त्रियों के लिए आश्रमों आदि का प्रबन्ध करना और सुधारक तथा अन्य सस्थाओं से निकले व्यक्तियों की देखभाल करना ।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय युवक कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना रहा है । इन कार्यक्रमों में युवक शिविर तथा राष्ट्रीय अनुदान योजना भी सम्मिलित हैं । राष्ट्रीय अनुदान योजना को पुनर्वासि मन्त्रालय का सहयोग भी प्राप्त है । हमारी योजना के अन्तर्गत स्वानिर्भर में एक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज खोला गया है । यह मन्त्रालय युवक कल्याण कार्यों में लगे हुए कई मण्डलों को आर्थिक सहायता भी दे रहा है । उन मन्त्रालय के कार्यक्रमों में शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि में अक्षम लोगों को भी शिक्षा, प्रशिक्षण, तथा राजगार देने की व्यवस्था की गई है ।

बाल अपराधों और भिक्षावृत्ति का निवारण करने तथा जलाशय कल्याण सेवाओं को आरम्भ करने के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय मन्त्रालय कार्यक्रम बनाए है । राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे स्वानिर्भर के कार्यक्रम बनाकर उन्हें प्रयत्न लागू करें ताकि भविष्य में निधार्तों की गई स्वनिर्भर नीति को समय के अन्दर कार्यान्वित किया जा सके ।

प्रश्न—विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासि के लिए क्या कार्य अभी किए जाने हैं ? उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर—पश्चिम पाकिस्तान में आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासि कार्यक्रम का काफी बड़ा हिस्सा पहली योजना के अन्त तक पूरा हो चुका था । फिर भी हमारी योजना में स्वीकृत आवास योजनाओं को पूरा करने, प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था करने तथा नए उपनगरों में उद्योगों को उन्नत करके धरोजगारी दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा सुधारका योजना को भी लागू किया जा रहा है ।

पूर्व पाकिस्तान में निरन्तर आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के कारण पूर्वी राज्यों में विस्थापितों को बसाने की बड़ी गम्भीर समस्या उठ खड़ी